



Municipal Library,  
NAINI TAL.



Class No. 891.5

Book No. 72 54 A





# एशिया में प्रभात

लेखक  
 श्रीदुलारेलाल भाग्नव  
 ( माधुरी-संपादक )

## चुनी हुई राजनीतिक पुस्तकें

एशिया-निवासियों के प्रति योरपियनों का वर्ताव	...	I=)
जगद्गुरु भारतवर्ष	...	३)
जातियों को संदेश	...	II)
जापान की राजनीतिक प्रगति	...	२।)
बीसवीं सदी का महाभारत	...	III)
बोलशेविज़म	...	४।=)
भारत को स्वाधीनता का संदेश	...	५।)
भारतीय जागृति	...	६।)
भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीय संदेश	...	III)
भारतीय राष्ट्र	...	६।)
भारतीय राष्ट्र-निर्माण	...	II=)
मनुष्य के अधिकार	...	I=)
खल की राज्यकांति	...	५।)
वर्तमान एशिया	...	२।)
संसारव्यापी इसहयोग	...	II=)
साम्यवाद	...	I=), २।।)
हमारा भीषण हास	...	=)
हमारे देश की प्राचीन उत्तिति	...	II)
हिंदू-जाति का खातेभ्य-प्रेम	...	।।)
हिंदू-चराज्य ( म० गाँधी )	...	I-)

नोट—इमारे यहाँ से हिंदुस्थान-भर की सभी प्रकार और सभी विषयों परीं लिंदा गुलझे मैंगाइप । हिंदुस्थान में हमारी ही हिंदी-पुस्तकों की सबसे बड़ी दूकान है ।

प्रबन्धवहार का पता—

गंगा-पुस्तकभाषा-कार्यालय  
२५-३०, अभीलाभाव-पार्क, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का चौतीसवाँ पुस्त

# एशिया में प्रभात

( क्रांति के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् पॉल रिचर्ड लिखित  
Dawn over Asia का अनुवाद )

अनुवादक

ठाकुर कल्याण सिंह शोशावत जी० ए०



प्रकाशक

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२९-३०, अमीनाबाद-पार्क

ताप्तनक

प्रथमांकित

संजिल ३१ ]

सं० १९८१ वि०

[ साढ़ी । ]

प्रकाशक  
श्रीछोटेलाल भार्गव वी० एस-सौ०, एल० एल० वा०  
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय  
लखनऊ  
गोप्य  
सुदूर  
व० क० गुर्जर,  
श्रीलक्ष्मीनारायण-प्रेस, बनारस  
१९२२-२४

# दो शब्द



अंथकार

श्रीमान् पाल गंटनी रिचर्ड का जुभ जन्म फ्रांस-देश में सन् १८४७ की १७ जून को हुआ था। वह बाल्यावस्था से ही विद्याभ्यासी तथा धर्मपरायण थे; इसीलिये उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालय की साहित्य और धर्म-शास्त्र की सर्वोपरि परीक्षाएँ, थोड़े समय में ही, पास कर डालीं। तदनंतर पेरिस के हाईकोर्ट की बैरिस्टरी-परीक्षा में भी वह उत्तीर्ण हो गए।

धर्म-शास्त्र में उनकी अधिक रुचि थी। अतएव उन्होंने लेखनी भी शीघ्र ही उठा ली; और राजनीति, धर्म तथा दर्शन आदि विषयों पर वह लेख भी लिखने लगे। इसके बाद वह पेरिस के “लि सिकल Le Siecle” और “लि आरोरी Le Aurorii”—नामक पत्रों की संपादक-समिति में नियुक्त और फिर “जरनल डेस डिबेट्स Journal des Debats” पत्र के संचादवाता हो गए। अस्पकाल के पश्चात् उन्होंने फ्रैंच-भाषा में तीन छोटे-बड़े अंथ लिखे, जिनके नाम ये हैं—

“Le Christ afres La Resurrection”, “L’Ether Vivant” और “Le Dieux”। इनमें से पहले दो का अँग-रेसी में भी अनुवाद हो चुका है।

सन् १९०५ में रिचर्ड महोदय, फ्रैंच-सरकार की ओर से, फ्रैंच-उपनिवेश ‘गायना’ में, वहाँ के कोवियट-उपनिवेश की दशा

का निरीक्षण करने के लिये, भेजे गए। सन् १९१० में वह पहले-पहल भारतवर्ष में आए, और उसी समय पांडीचेरी में श्री अरविंद घोष से उनकी भेट हुई। इन दोनों महानुभावों की साधारण जान-पहचान गाढ़ी मैत्री में परिणत हो गई; और सन् १९१४ में जब वह भारत में दुबारा आए, तो उन्होंने श्री अरविंद घोष के साथ दर्शन-शास्त्र-विषयक “आर्य” मासिकपत्र की स्थापना की।

कवाचित् उसी समय रिचर्ड महोदय भारत में और भी कुछ परोपकार करने लग जाते; परंतु स्वदेश में महासंग्राम छिड़ जाने के कारण अपने देश की सेवा करने के लिये वह फ्रांस लौट गए, और वहाँ जंगली घोड़ों को ठीक करने के काम पर वह नियुक्त किए गए; परंतु रुग्णावस्था के कारण सन् १९१६ ही में वह सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए गए। उनके एक भाई भी, स्वदेश-रक्षा के लिये लड़ते हुए, संग्राम में मारे गए थे।

जैसा कुछ मनुष्य का अंतःकरण होता है, वैसा ही उसका चरित्र भी होता है। अंतःकरण के विरुद्ध चलना प्रकृति के विपरीत चलना है। कुछ काल तक भले ही मनुष्य अपने सभाव और अंतःकरण के विरुद्ध चलता रहे; परंतु अंत में उसको उसी मार्ग पर चलना पड़ता है; जिस पर चलने के लिये उसका अंतःकरण प्रेरित करता है। रिचर्ड महोदय विद्यार्थी-जीवन से ही अध्यात्म-बाद, अहिंसाबाद तथा शांतिबाद के पक्षपाती थे। परोपकार की चिता में वह सदा लीन रहा करते थे। ऐसी दशा में, भला वह कबूतर के दुनिया के भर्मेलों में फँसे रह सकते थे। योरप के महासंग्राम में जो रुधिर की नदियाँ बहाई गईं, तथा अमेकानेक अत्याचार किए गए, उनसे उनकी काल्पना अत्यंत व्याकुल हो उठी।

वह अपने दिल को मसोस कर बैठे न रह सके। अतः अपने देश—फ्रांस—की सैनिक सेवा से छुट्टी पाते ही उन्होंने गार्हस्थ्य जीवन को तिलोजलि दे दी, और संसार-भर के कल्याण करने की चेष्टा में लगाने के निमित्त अपनी मालू-भूमि को छोड़कर वह देश-देशांतर में पर्यटन करने के लिये निकल पड़े। पहले-पहल वह जापान आए, और वहाँ अपने उद्देश्यों का प्रचार करने लगे। एशिया-महाद्वीप के राष्ट्रों की एकता और स्वतंत्रता के लिये वह कई बातें सोचने तथा विविध उपाय करने लगे। इस उद्योग में सफलता पाने के लिये उन्होंने फ्रेंच और जापानी भाषा में “To Japan जापान से प्रार्थना”, “To the Nations जातियों को संदेश”, “The Lord of the Nations जातियों का प्रभु”, “The Eleventh Hour अंतिम समय अथवा र्यार-हबॉं घटा” आदि ग्रंथ लिखे, जिनमें से एक-दो के अङ्गरेजी-भाषांतर भी हो चुके हैं। अपने विश्व-प्रेमपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने जापान में एक जातीय-समानता-संघ—League for the Equality of the Nations—बनाया। इस संघ का सविस्तर वर्णन पाठकों को आगे मिलेगा। साथ-ही-साथ वह जापान में और भी परोपकार के कार्य करते रहे। वह कुछ काल तक “Asian Review एशियन रिव्यू”—नामक मासिक पत्र के परामर्शदाता तथा नीति-संचालक रहे। डोकियो के एक विद्यालय में वह दर्शन-शास्त्र के अध्यापक भी रहे।

सन् १९२० में एशिया की एकता और स्वतंत्रता सिद्ध करने के उद्देश्य से वह भारत में आए। यहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने बत्त “जातीय-समानता-संघ” की एक शाखा भारत में

भी खोल दी, और उसके द्वारा अपने मंतव्य का प्रचार करने लगे। इस शुभ कार्यमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली। वह उन आशावादी मनुष्यों में हैं, जो लाज बाधाएँ उपस्थित होने पर भी कभी हताश नहीं होते। इस महत्कार्य के लिये उनको प्रचुर धन तथा स्वार्थशून्य मनुष्यों की बड़ी जारूरत है; परंतु वह रक्ति-भर भी चिंता नहीं करते, बल्कि आशा और विश्वास रखते हैं कि भगवान् स्वयं सब कुछ व्यवस्था कर देंगे।

गल दो-तीन वर्षों में भी उन्होंने अपने प्रचार-कार्य के लिये जो पुस्तके लिखी हैं वे ये हैं—“The Dawn over Asia एशिया में प्रभात”, “The Scourge of Christ ईसा-मसीह की दुर्दशा” और “The Eternal Wisdom अनंत ज्ञान”。 अभी तक वह कई महत्पूर्ण प्रथं लिखने में लगे हुए हैं।

आज कल वह बहुधा हिमालय में—कोटगढ़-नामक स्थान में—जो शिमला से आधिक दूर नहीं है—एकांतवास कर रहे हैं, और जो कुछ उनका अति उच्च, परम उपादेय, महत स्वार्थशून्य तथा विश्वव्यापक ध्येय है, उसको सफलीभूत करने के लिये आदर्श तथा क्रिया-साध्य उपाय, शांतिपूर्वक, एकांत में, मौनावलंबन किए हुए, सोच रहे हैं। कोटगढ़ में वह एक ऐसा आश्रम भी बनाना चाहते हैं, जहाँ शांतिपूर्वक रहकर और भावपुरुषगण भी विश्व के कल्याण के लिये उपाय सोचें, और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत करें।

रिचर्ड महोदय की जीवनी आद्योपात सूक्ष्मतया पढ़कर पाठक समझ सकते हैं कि वह कैसे परम दयालु, सचरित्र, उदाराशय, विश्वहितैषी, ज्ञान-संपन्न, मर्मज्ञ विद्वान् और स्वार्थशून्य पुरुष

हैं। उनके विषय में यह भी कह देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि उनका कार्य-क्रम राजनीति (Politics) या दलबद्दी (Party diplomacy) से नितांत भिन्न है। उनकी कार्य-परिपाली नैतिक (Moral) और आध्यात्मिक (Spiritual) है। वह किसी एक धर्म के अनुयायी और अंधभक्त भी नहीं हैं। उनका ध्येय विश्व की स्थायी शांति को अहिंसात्मक और आध्यात्मिक रीति तथा शक्ति द्वारा स्थापित करने का है। आजाकल जो कालं और गोरं का वर्ण-भेद संसार की जातियों में द्वेष फैला रहा है, उसके बहु बड़े विरोधी हैं। उनका उद्देश्य है कि ऐसा भेद-भाव भटपट छठ जाय, और संसार की सब जातियाँ—चाहे वे काली, गोरी, लाल, पीली अथवा कैसी भी हों—एक दूसरे पर किसी प्रकार का अत्याचार न करें, और परस्पर प्यारी बहनों की भाँति अपना-अपना द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक करती रहें। वह उल्लार चलाकर रुधिर यहाने तथा भोले-भाले जन-समुदाय को धोखा देकर उसे पक्षपात के बंधन में फौसने के कटूर विरोधी हैं। ऐसे ही नर-ग्नों, महापुरुषों और परोपकारी व्यक्तियों तथा आदर्श-महात्माओं के द्वारा अखिल जगत् का कल्याण हो सकता है। क्या हमारे भारत-पुत्रों में भी कई ऐसे ही उदार-हृत्य महापुरुष नहीं हैं? भगवान् से हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसे नर-रत्नों की संख्या जगत् के सभी देशों में दिनों-दिन बढ़े, जिसमें शीघ्रही शांतिमय भवित्व का निर्माण हो।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, उनका एक श्रेष्ठ “To the Nations” नाम का है, जिसका हिंदी-अनुवाद मैं कर चुका हूँ। उसका नाम “जातियों को संदेश” है। वह वैक्षे की “हिंदी-ग्रंथ-

रवाकर-सिरीज़” का ५० वाँ प्रथ है। वह हालही में प्रकाशित हो चुका है। उनके दूसरे प्रथ “The Dawn over Asia” के अनुवाद को आज मैं हिंदी-संसार की सेवा में समर्पण करता हूँ। आशा है, हिंदी-संसार इसको सहर्ष प्रहरण करेगा।

प्रथ

इस प्रथ का नाम “एशिया में प्रभात” रखा गया है, जो The Dawn over Asia का अविकल अनुवाद है। यह नाम इस प्रथ के उद्देश्यों का अद्यार्थ सूचक है; क्योंकि जो महत्वपूर्ण उपाय इस प्रथ में बताए गए हैं, वे जब कार्य-रूप में परिणत हो जायेंगे, तब निस्सदैह एशिया के गगन-मंडल में स्वतंत्रता, एकता और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति का देहीप्यमान भास्कर उदित होगा। उस सूर्य के उगाने के पूर्व एशिया में प्रभात हो चुका है। परमपिता की दया से एशिया में परमोज्ज्वल सूर्योदय भी होगा। एवमस्तु।

रिचर्ड भौतोदय ने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिये जापान-देश में, वहाँ की सभाधों तथा ‘जातीय-समानता-संघ’ के अधिक्रेशनों में, समय-समय पर जो व्याख्यान और भाषण दिए, वे ही सब प्रेंच-भाषा में लिपिबद्ध कर लिए गए। “The Dawn over Asia”—नामक पुस्तक में उन्हीं सब का संग्रह कर दिया गया है। इन भाषणों का अँगरेजी-भाषांतर भी तपस्ती अरविंद घोपने किया है।

मैं आवश्यक समझता हूँ कि इस प्रथ के उद्देश्यों और मंतव्यों के विषय में दो-चार शब्द लिख दूँ, ताकि पाठकों को विषय-प्रवेश में सुगमता हो।

श्रीमान् पाल रिचर्ड ने अपने “जातियों की संदेश”—नामक

प्रथमे योरपीय महासंग्राम के वास्तविक कारणों का विगदर्शन करते हुए भविष्य में शीघ्र ही होनेवाले उसके परिणामों के संबंध में यह बताया है कि “महासंग्राम में स्वार्थपरता का रावण मारा जाकर भविष्य में शांति का अटल राम-राज्य स्थापित होगा, जिसमें पद-दलित और अधिकृत जातियाँ—विशेषतः एशिया-महाद्वीप की जातियाँ—स्वतंत्रतापूर्वक स्नेह और सहानुभूति के कोमल सूत्र में परस्पर बँधी रहेंगी, और मानव-हृषिर से अपने हाथों को नहीं रेंगेंगी।”

इस पुस्तक में पौल महाशय ने शक्ति, सत्याग्रह तथा पूर्ण विश्वास के साथ इस बात का प्रतिपादन किया है कि आजतक कई जातियों ने अन्य कई जातियों के साथ जो पक्षपात और क्षुद्रता का व्यवहार किया है, वह भविष्य में अधिक कालतक नहीं हो सकेगा, वहिक समानता का व्यवहार ही इसका भावी परिणाम होगा। प्रथकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य एशिया को जगाना, एशिया की स्वतंत्रता और एकता का संपादन करना, तथा एशिया में एक ऐसी नवीन सभ्यता को उत्पन्न करना है, जो मानव-जाति के विकास और उसकी पूर्णता का आधार होगी, और जिसको प्राप्त करके मानव-जाति पूर्खी पर ही स्वर्ग की सृष्टि करेगी।

उपर्युक्त स्वर्गीय और पुरायशील सभ्यता को प्राप्त करने के लिये उन्होंने अच्छी योग्यता, कुशलता, दूरविश्वास, प्रामाणिकता, सहदयता और सहानुभूति के साथ नीचे-लिखे उपाय बताए हैं—

( १ ) एशिया की भिन्न-भिन्न जातियाँ अपने पारस्परिक कलह और क्षुद्रता को त्यागकर एक हो जायें, और सिलजुल-कर एशिया का सर्व प्रकार से उद्घार करें।

( २ ) इस महत्कार्य में जापान एशिया के राष्ट्रों का नेता बने; क्योंकि जापान विद्या, बुद्धि और कला-कौशल में एशिया की समस्त जातियों में बढ़ा-चढ़ा है। जापान अपने भूठे स्वार्थों को त्याग कर—(उदाहरणार्थ, कोरिया-प्रांत को स्वतंत्र करके)—एशिया को स्वतंत्रता और एकता का पवित्र मंत्र सिखावे, और आंत में समस्त संसार को भी उसी शांति का पाठ पढ़ावे ।

( ३ ) जापान में जो योरप की बहुत-सी वातों की नकल करने का 'भौद्धपन' आ गया है, उसको वह सर्वथा छोड़ दे; क्योंकि इस प्रकार अनुकरण करने से कई तरह की हानियाँ हैं, जिनमें प्रधान यह है कि जिस योरप की नकल की गई, अथवा की जा रही है, वह योरप स्वयं बदल रहा है, और भविष्य में वह और भी अधिक बदलेगा । जहाँ जार-शाही थी, वहाँ मज़दूर-शाही का नकारा बज गया; जहाँ क़ैसर-शाही थी, वहाँ प्रजातंत्र की दुहाई फिर गई; जहाँ स्वचंद्रतापूर्वक राजा राज करता था, वहाँ पूँजीपति धनिक लोग आत्म-लाभके लिये पार्लियामेंटों में बैठकर क्षानून बना रहे हैं; जहाँ पूँजीपति आंत प्रभाव को काम में ला रहे थे, वहाँ मज़दूर-बदल समस्त शक्ति को कर-तलाभात करने के लिये प्राण-पण से चेष्टा कर रहा है; और जिस व्यवस्था की नकल उतारी जाती है, वह स्वयं अपना चोला बदल रही है । ऐसी दशा में, उसकी नकल करना तो साफ तौर से पीछे रहना और बचति का तिरस्कार करना है ।

( ४ ) योरप तथा अमेरिका के प्रजातंत्र के सुरीले और लुभावने राग को सुनकर एशिया-महाद्वीप मोह-मस्त हो गया है । परंतु, पहले यह भी तो देखना आवश्यक है कि उन देशों का

प्रजातंत्र वास्तव में सच्चा, लाभदायक और पवित्र है या नहीं ? 'प्रजातंत्र' का अर्थ तो यही है न कि किसी देश में मनुष्य वहाँ के समाज पर मनमानी न करने पावे ? परंतु साथ ही यह भी सोचना उतना ही आवश्यक है कि एक मनुष्य की तरह दुष्ट प्रकृति के अनेक मनुष्य, अपने निजी स्वार्थों की रक्षा करने के लिये, जन-साधारण को चक्रमा देकर, उनके स्वत्वों को जार या क़ैसर से भी अधिकतर भयंकरता के साथ न कुचल डालें । क्या कई देशों के भालदार और स्वार्थी आदमी वहाँ की राष्ट्र-सभाओं में घुसकर प्रजातंत्र की धूल नहीं उड़ा रहे हैं ? अमेरिका के प्रजातंत्र में कई ऐसे दोष उपस्थित हो गए हैं, जिनके कारण वहाँ भी वास्तविक स्वतंत्रता छुपप्राय-सी हो गई है । सच्चा और वास्तविक प्रजातंत्र तो वह है, जिसमें छोटे और बड़े अपने निजी लाभों की पूर्ति की चेष्टा को त्यागकर समाज लाभ, समाज प्रतिष्ठा और समाज प्रेम के भाव में रत ही जायें । जापान को इसी प्रकार की स्वार्थशून्य एवं जगदुपकारिणी प्रजातंत्र-सभ्यता का निर्माण करना चाहिए; ताकि बड़े लोग छोटों की और छाटे लोग बड़ों की किंता करें, और आपस की थुक्का-फ़ूजीहत करने तथा एक दूसरे के सुँह का कौर छीनने के लिये दलबंदी न करें । यही जापान का धार्मिक कर्त्तव्य और व्यावहारिक उपदेश तथा सच्चा संदेश होना चाहिए ।

एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में कुछ ऐसे महामना, उदार-स्वभाव और देवोपम मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं, और भविष्य में भी अधिकतर संख्या में होंगे, जो बस्तुतः ईश्वर के साक्षात् आवतार ही होंगे । वे समस्त एशिया को सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची

एकता और सब्दी परमार्थता के विद्य उपदेश-मंत्र से दीक्षित कर, न केवल एशिया ही को एक करके उसका उद्घार करेंगे, बल्कि अखिल जगत् का कल्पयण करेंगे। ऐसे मनुष्य प्रत्यक्ष अवतारी पुरुष होंगे। ऐसे कुछ तो अभी से विद्यमान हैं, जो अपना उदार भत्ता फैला रहे हैं। एक दिन वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएँगे, और अपना संघ या सम्मेलन बना लेंगे। संसार के लाभ, प्रतिष्ठा और शांति का संरक्षण वे कधिर बहाकर सैनिक बल से नहीं, किंतु आध्यात्मिक बल से करेंगे। इस प्रकार स्वार्थाधीता धीरे-धीरे बिलीन हो जायगी, और प्रत्येक मनुष्य सब्दा और परमार्थी बनकर स्वर्ग का पुत्र बन जायगा। भारतवर्ष के श्रीआरविंद धोप को भी रिचर्ड महोदय ने ऐसे ही महापुरुषों में गिना है, और कहा है कि वह एक दिन हजारों के गुरु बन जायेगे, तथा मानव-समाज को अहिंसा एवं परमार्थ का पाठ पढ़ावेंगे। एवमस्तु ।

इस पुस्तक के छंत में जो परिशिष्ट है, उसमें जापान के “जातीय-समाजता-संघ” का विस्तृत वर्णन दिया गया है।

#### निवेदन

आज शरत्-पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा की शांतोऽज्ज्वल सुशीतल चाँदनी से नभ-मंडल रजस-मंडप हो रहा है। मैं अपना यह निवेदन समाप्त करते हुए परमपिता परमात्मा से यही हातिक प्रार्थना करता हूँ—जैसी कि मैंने “जातियों को संदेश”—नामक पुस्तक के प्राकृकथन में की है—कि वह जगवाधार जगदीश हम सबको ऐसी सुखुद्धि दे, ऐसा सुहान है, ऐसी सुशक्ति दे, और साथ ही इन सबको धारण करने के लिये ऐसा सुपरिषद्

[ १५ ]

मस्तिष्क तथा उवर छव्य दे कि हम एक दूसरे के रक्त के प्यासे न रहें, बल्कि स्नेह और सहानुभूति तथा भाई-चारे और भिन्नता के कोमल बंधन में बँधे रह कर अद्वित जगत् का कल्याण करें, और इस संसार को स्वर्ग में परिणाम कर दिखावें।

शश्त्र-पूर्णमा चिकित्स-संबन्ध १९७५ खाचरियावास-फोर्ड ( राजपूताना )	विश्वव्यापी शांति का आकांक्षी विनीत— कल्याण सिंह
--	--

## विषय-सूची

				पृष्ठ
पहला प्रकरण—एशिया की एकता	...	...	...	१७
दूसरा प्रकरण—एशिया का भविष्य	...	...	...	२४
तीसरा प्रकरण—जापान का संदेश	...	...	...	३८
चौथा प्रकरण—प्रजातंत्र ( Democracy )	...	...	...	४३
पाँचवाँ प्रकरण—भावी मनुष्य	...	...	...	५५
छठा प्रकरण—स्वर्ग के पुत्र	...	...	...	६३
सातवाँ प्रकरण—धर्मिद धोप	...	...	...	७१
एविंशिष्ठ—आतीय-समाजता-संघ	...	...	...	७१

— — — — —

# एशिया में प्रभात

~~~~~

## पहला प्रकरण

### एशिया की एकता

( जातीय-समानता-संघ के अधिकेशन में २२ मार्च, १९१९ को  
दोकियों में दिया हुआ भाषण )

आज आपने जो विना जातीय पक्षगात के इस सभा में मेरा खामोश किया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मेलन में मेरी तथा अन्य बाहरी सित्रों की उपस्थिति इस बात की भूत्तना देती है कि यहाँ पर निरी जाति-हितैषिता की अपेक्षा कुछ अधिक गंभीर भाव मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अदिक जो भाव विनामान हैं, वे एशिया-हितैषिता की अपेक्षा भी उच्चतर हैं। यहाँ पर जातीयता और राष्ट्रीयता के ऊपर मानव-एकता और समान मानव-लाभ का भाव अंतर्बीनि है, जो मनुष्यता के नवीन और उच्चतर सिद्धांत पर अबलंबित है। मानव-आकाश में इसी भाव का चलय ही रहा है। यह प्रभात भी अन्य प्रभातों की नार्दे पूर्व किशा में ही हो रहा है। एशिया के समक्ष में इसी

प्रभात की घोषणा करता हूँ; क्योंकि मेरी आत्मा एशिया की विशाल आत्मा में सिंशित हो गई है।

जब आप लोग जातियों की समानता—भ्रातृ-भाव—के विषय में चर्चा करते हैं, तब मैं फ्रेंच होकर इसको कैसे भूल सकता हूँ; क्योंकि यह शब्द और यह विचार फ्रांस-देश के हैं। योरेप के समस्त देशों में क्या मेरा देश साम्यवाद को प्रश्रय देने में सर्व-प्रथम और अद्वितीय नहीं है? मेरे ही देश ने काले और गोरे चमड़े (वर्ण-भेद) के व्यर्थ प्रश्न को अपनी भर्यादा के विषय समझकर अपनी पालियामेट में कृष्ण वर्ण के अफ्रिका-निवासी मनुष्यों के प्रतिनिधियों को स्थान देने का गौरव प्राप्त किया है। मेरे ही देश ने जाति-संबंधी पक्षपात को अपनी शान के खिलाफ समझा है। आज की इस सभा में हम लोगों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि फ्रांस-देश पहले भी आदर्श नेताओं का देश था, और अब भी है।

तो भी यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आप पेरिस की शांति-परिषद् से बातचीत और लिखा-पढ़ी करके अपने डार्भीष्ट की संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जायेंगे—जातियों की पारस्परिक विषमता हूर करने में समर्थ होंगे, तो अवश्यमेव मैं भूठा जनूँगा; क्योंकि पेरिस-राष्ट्र-संघ के अधिष्ठाता आहे जितने धुरंधर, महान् और शक्तिशाली पुरुष हों, उनके साथ लिखा-पढ़ी करके आप इस विषय में कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि आपका जो ध्येय है, उसकी पूर्ति करना उसकी शक्ति के बाहर है।

कभी आप समझते हैं कि मनुष्यों के अस्तान और घरांड

को वे लोग एक गंभीर फैसले (Decision) से दबा सकते हैं ? स्मरण रहे कि इसी घमंड और आङ्गान के कारण भिन्न-भिन्न जातियाँ और राष्ट्र, तथा एक ही जाति के छो-पुरुष, आपस में भी मिथ्या दोषारोपण और मनमुटाव किया करते हैं । क्या आप इस बात को विचार में ला सकते हैं कि पेरिस-राष्ट्र-संघ के संचालक एक शब्द से—एक बार की आङ्गा से—मनुष्य की मूर्खता को, जो मानव-समाज में अन्याय की जननी है, नष्ट कर सकते हैं ? यदि आपका आदर्श उनके लाभों से सामंजस्य नहीं रखेगा, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि वे इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देंगे ? क्योंकि उनका आदर्श अपने स्वार्थ-पूर्ण विचारों को फलीभूत करने और उन पर आदर्श नाम का एक परदा डालने ही में है । यदि आपने राष्ट्र-संघ से ऐसी आशा धारण की है, तो आपके लिये अच्छा होगा कि आप इस माया-जाल को त्याग दें, ताकि आप किसी श्रेष्ठतर आशा को प्रहरण कर सकें ।

आप पुराने योरप से किस बात की आशा रखते हैं ? जब यह नवीन भाव, या नवीन आत्मा, सर्व योरप में तो ही ही नहीं, तो फिर वह आपको कहाँ से देगा ? यह कुछ आत्मा तो आप में है, और आप ही से उसको भी मिल सकती है । आपको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिये गिर्गिवाकर आप योरप के हाथ जोड़ें । यह आपका काम नहीं है कि जाती-यता के गून से सने हुए घमंड को छोड़ने के लिये आप योरप से कहें, वस्तिक आपका कर्तव्य तो यह है कि आप उसको इस दोष से बचावें । आप ही उसको कुछ दे सकते हैं । आप उससं

कुछ पाने की आशा न रखें। उसके सुपरिवर्तन या पुनर्जन्म के अतिरिक्त उससे किसी बात की उम्मीद न रखें।

क्या आप नहीं देखते हैं कि प्रेम द्वारा योरप को ईर्ष्या, धृणा और अस्तव्यस्ता के जाल से बचाने की कितनी बड़ी आवश्यकता है? मैं समझता हूँ, आत्मा के प्रकाश के द्वारा उसके मानसिक अंधकार को हटाने और पुनर्जीवन (Resurrection) द्वारा उसे मृत्यु से बचाने की बड़ी ज़रूरत है; क्योंकि जो योरप पहले था, वह अब नहीं है। आज वह अपने ही पाप के नीचे गड़ा हुआ पड़ा है। योरप को इस समय जैसा होना चाहिए था, वैसा वह अभी तक नहीं हुआ है। वह प्रतीक्षा कर रहा है, और प्रतीक्षा कर रहा है एशिया की। क्या सदैव से ऐसा होता नहीं चला आ रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान की किरणें और जीवन की लहरें एशिया ही से उठकर योरप की ओर बढ़ती रही हैं। और, भविष्य में क्या ऐसा नहीं होगा? क्या भूतकाल में भी संसार की जातियों को मोहांधकार के गढ़ों गिरने से बचानेवाले उद्धारक एशिया ही से नहीं गए हैं? और, भविष्य में क्या वे नहीं जायेंगे? इसलिये मैं—योरप की संसान—यहाँ आकर आपसे कह रहा हूँ कि “एशिया! जाग”।

एशिया की भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार से जगाना चाहिए। पहले समस्त एशिया को एकता के अदृष्ट सूत्र में बद्ध करके, उसका सुहृद संघटन करके, उसे जगाइए। परंतु इस कार्य का संपादन करने के लिये एशिया की जातियों के स्वामी मत बनिए, अल्पि मित्र और सहायक बनिए। जातीय, पक्षपात—बलवंदी—के विचारों को छोड़ दीजिए। उनके साथ भाई-भाई की तरह मिलिए,

उन्हें भूलकर भी गुलाम न समझिए । जो आज गुलाम कहलाते हैं, उनका ऐसा उद्धार कीजिए, उन्हें इस तरह अपनाइए कि वे आपके भाई बन जायें । उन सबको मिलाकर एक ही परिवार—एक ही कुरुंग—बना डालिए । एशिया की जातियों का एक आदर्श संघ बनाकर उसकी संयुक्त सरकारों का एक विशाल राष्ट्र बना लीजिए ।

यह सब करने के लिये एक काम और कीजिए । एशिया की जातियों में सबसे पहले पारस्परिक एकता का ज्ञान जापत कीजिए । प्रत्येक मानव-शरीर में घट-घट-व्यापी ब्रह्म का अस्तित्व है—ऐसे ज्ञान की जागृति से एशिया की जातियों को भ्रातृत्व के शुद्ध बंधन में बौधकर सगूचे राष्ट्र की विद्यरी हुई शक्तियों को एक कर दीजिए । यही (*आत्मज्ञान*) एशिया का एक ऐसा पवित्र भंडार है, जिसको योरप छीन नहीं सकता । यह उसका आदिम आविष्कार और पैतृक संपत्ति है—उसका साक्षात् सत्य है । भौतिक विज्ञान योरप की आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति का आधार है । इसका अंतिम परिणाम भीषण हास के अस्तिरिक्त और कुछ नहीं । आध्यात्मिक विज्ञान एशिया की पैतृक संपत्ति है । उसमें अनंत जीवन है, वह आवेद शक्तिशाली है—नाशवान अथवा परिवर्तन-शील नहीं ।

इसीलिये पश्चिम के साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं (प्रीस, रीम, सीडान और वारथेज के साम्राज्यों में से कौन-सा बचा है ?), परंतु सहस्रों वर्षों के प्राचीन साम्राज्य भारत, चीन और जापान आज तक बने हुए हैं । वे इसी आध्यात्मिकता के बल पर आज तक ढहरे हुए हैं । एशिया में ही वारंवार आध्यात्मिक ज्ञान का

नूतन संस्कार हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सात्त्विक जीवन का एकमात्र गंभीर और रहस्य-पूर्ण कारण है। इसी के द्वारा एशिया की जातियों में सच्ची एकता के ज्ञान का पुनर्जन्म होता आया है। वह वही आधार और सिद्धांत है, जिस पर भावी संसार का सुपुष्ट निर्माण होगा।

देखिए, समस्त जातियाँ इसीलिये प्रसव-पीड़ा से ब्रह्म हो रही हैं कि उस नवीन भाव का जन्म हो जाय। प्रत्येक जाति उस भाव को प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है। आजकल के कई विजेता राष्ट्र इस एकता को अपनी शक्ति की विधमताओं के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं; क्योंकि वे उसी भाव को अब जीतना चाहते हैं, जिसको वे सदैव से धारण किए हुए हैं। वे वास्तव में विजेता नहीं, बल्कि विजित हैं, और यही कारण है कि जब वे जहाँ कहीं शांति की चर्चा करने के लिये एकत्र होते हैं, वहाँ रण-चंडी भी आमंत्रित होती है; क्योंकि शांति के नाम से वे शक्तियों का प्रभुत्व जमाना चाहते हैं।

अब देखिए ! इन विजेताओं के प्रभुत्ववाद का उत्तर विजित वर्ग के लोग किस प्रकार से देते हैं। धनवानों और बड़ों के राज्यों का वे विरोध और गरीबों के राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं। विजेता राष्ट्र स्वर्ग के राज्य—समानता के राज्य—को बल-प्रयोग द्वारा छीनने का प्रयत्न करते हैं; अर्थात् योरप में राज-सत्ता और प्रजा-सत्ता में भीषण विरोध उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, एक दूसरे पर अपना रोष जमाना चाहते हैं। परंतु आप लोग इन दोनों ही दलों की कार्य-प्रणाली का अनुकरण

करने के लिये क्यों बाध्य हो रहे हैं ? आपको तो चाहिए कि आप दोनों के सामने एक आवृद्ध उदाहरण रखें, तथा स्वयं अपने ही अंदर भ्रातृ-भाव और समानता की एकमात्र संस्था को—समस्त जातियों की स च्ची एकता और पारस्परिक प्रीति को—स्थापित करके सबको शिक्षा दें ।

इसी शुभ नींव पर, इसी उश्नत सिद्धांत पर, एशिया की भावी सम्भवता का निर्माण कीजिए । उस सच्ची समानता को स्थापित कीजिए, जिसमें वडप्पन और उदाहरता अंतर्व्याप्त हों । उस वास्तविक न्याय को, जो सौंदर्य को भी अपने अंतर्गत रखता है, निर्मित कीजिए । उस सच्चे प्रजातंत्र का संगठन कीजिए, जिसमें पवित्र संकेतों और चिन्हों—ईश्वरवाद—को भी स्थान मिलता है, जिसमें भौतिक स्वार्थवाद और ईश्वरवाद सम्बलित रहते हैं । एकता के साम्राज्य की रचना कीजिए । केवल इसी एक तरीके से आप जातीय विप्रमता के राज्य का नाश कर सकेंगे ।

---

## दूसरा प्रकरण

### एशिया का भविष्य

[ यह भाषण, टोकियो में, जातीय-समानता-संघ के २४ एप्रिल, १९१९ के अधिवेशन में दिया गया था ]

एक मास पूर्व मैंने आपसे कहा था कि जिनसे आप लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, उनसे कुछ भी प्राप्ति की आशा न रखें। ऐसे कथन के लिये मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु जब आपने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर एक बार फिर कुछ निषेद्धन करूँ, तो इस बार मैं यह कहने के लिये आया हूँ कि आप अपने आप और भविष्य से ही सब कुछ आप करने की आशा रखते हैं।

क्या आप नहीं देखते हैं कि इस संसार की समस्त जातियाँ में सारी व्यवस्थाएँ बदलनेवाली हैं? ऐसी दशा में अगस्तोस केवल उनके लिये है, जो आपने आपको बदलने से मुँह भाङ्ड रहे हैं। वे अवश्यमेव नष्ट होंगे, जो न्यायी और खरे नहीं हैं। वे सचमुच खेद के पात्र हैं। वे अभी से भिट्ठी में मिल गए हैं, अपराधी बन गए हैं। क्या आप नहीं देखते कि भूतकाल मरणो-न्मुख ही रहा है, मर रहा है, विलिक मर चुका है? अब उसका केवल आभासमात्र—छायामात्र—दिखाई दे रहा है। भविष्य में उसके भग्नावशेष के अतिरिक्त और कुछ भी बचा नहीं रहेगा। क्या

आप इसी सृतप्राय भूत से न्याय की आशा रखते हैं ? क्या भविष्य की बातों को, जातियों की समानता को, भ्रातृ-भाव और एकता को, आप इस अतीत भूत से माँगते हैं ? इससे ऐसी ग्रार्थना करनी ही आपकी भूल है । जो इस भूत के पद्धपाती और समर्थक हैं, उनसे याचना करना आपकी चालती है । इन लोगों को आदर्शवाद ( Idealism ) तभी तक हचिकर होता है, जब तक वे उसमें अपना कुछ स्वार्थ देखते हैं । जिस समय ये लोग शक्ति और प्रधानता के स्वामी नहीं होते, केवल उसी समय ये सत्य के बनावटी दास बन बैठते हैं । जब कभी ये और कुछ करने से लाचार होते हैं, तभी न्यायी बन बैठते हैं । परंतु जब ये अपने स्वार्थ की पूजा कर सकते हैं, तब न्याय और स्वरैपन को दूर कैंक देते हैं ।

इसलिये भूत को तो अब कक्ष में जाने दीजिए । अब केवल भविष्य की ओर हष्टिपात कीजिए । परंतु अपने लिये इस बात का ध्यान रखिए कि भविष्य ही भूत का घाटा पूरा कर सकता है । दूसरों के साथ, अपने से दुर्बलों के साथ, ऐसा कोई भी बुरा काम भत कीजिए कि जिसके लिये भविष्य में ग्रसिकार करना पड़े । जब एक अन्याय हो जाता है, और उसके लिये जिसी के हृदय में द्या-भाव उत्पन्न होता है, तो वह द्या-भाव अन्याचार-पीड़ित के प्रदि नहीं, बल्कि अन्यायकारी के प्रदि होता है; क्योंकि ऐसा करके भविष्य में वह अपने आपको पूर्ण कर डालता है, भविष्य को अपना भारी शत्रु बना डालता है, अपनी दुर्दशा का आप ही कारण बन जाता है ।

इसलिये आपके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिये

यदि किसी पर दया-भाव दिखाना है, पश्चात्ताप करना है, तो वह आपके लिये नहीं है। आपके उदीयमान भारकर की ज्योति केवल पूर्व में रहनेवाली उन जातियों के ही लिये नहीं है, जिनके सम्मुख प्रभात होनेवाला है, वहिक उन दूसरी पाश्चात्य जातियों के लिये भी है, जो अपने प्रतापादित्य को उच्चनि के चूड़ांत शिखर पर पहुँचने के उपरांत अस्त होता हुआ देख रही हैं। दया करने का, पश्चात्ताप के साथ हाथ मलने का, कर्तव्य गोरप का है, जिसने एशिया के साथ भूत में अन्याय किया है, न कि जिसने एशिया का अन्याय सहन किया है। यदि किसी को अपने आप पश्चात्ताप करने और लजित होने की ज़रूरत है, तो निससंदेह एशिया की काली और पीली जातियों के पुत्रों को नहीं, वहिक उस जाति के पुत्रों को, जो आब भी केवल रंग ही में गोरी हैं, जो अभी तक प्रायश्चित्त की परीक्षा में केवल आधी ही सुधरी हैं, और जो महासंप्राप्त-रूपी भीपण यज्ञ में आधी ही पवित्र हुई हैं।

वह जाति अपने को ईसाई कहती है। महात्मा काइस्ट (ईसा) एशिया के थे; इसलिये वह एशिया ही के एक पुत्र को पूजती है। अब यदि एशिया का वही पुत्र काइस्ट (ईसा) फिर इस पूज्यी पर आवे, तो विचारा अमेरिका से, जो ईसाइयों का देश है, इसलिये बाहर निकाल दिया जाय कि उसके पास डालरों (अमरीका के सिक्के) की उतनी बड़ी खेली नहीं है, जितनी कि एक सभ्य मनुष्य के पास होनी चाहिए। इतना ही क्यों, विचारा आख्येलिया से भी खिर्फ इसीलिये बाहर निकाल दिया जाय कि वह एक श्रमजीवी का पुत्र है, एशिया में उसका जन्म

हुआ है, वह किसी विदेशी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका है, और वह निर्धन दक्षिण अफ्रिका के उपनिवेशों की द्रामगाड़ियों में एशियावासी होने के कारण ईसाई और योरपीयन लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। आह ! यदि ईसा अब कहीं फिर इस भूलोक में आ जाय, तो उसी के नाम से प्रचलित ईसाई-धर्म के अनुयायी न जाने उसकी कैसी दुर्गति कर डालें, और फिर तुरा यह कि वे इसे सम्मता भी कहते रहें !

जातियों की वास्तविक मूर्खता है क्या ? आपस में आदर भाव का न होना, पारस्परिक सहृदयता को न समझना, मदांध और खार्थ-लोलुप होकर आपस के सज्जावों को भूल जाना, यहीं तो जातियों की अज्ञानता और मूर्खता है। घमंड के समान और मूर्खता है ही क्या ? अज्ञान ही तो अभिमान का मूल है। किसी काल में जब आपका पूर्व (एशिया) हमारे पश्चिम (योरेप) से छूणा करता था, तब वह गँवार नहीं तो और क्या था ? उसी प्रकार आज जब हमारा पश्चिम आपके पूर्व को ओढ़ी दृष्टि से देखता है, तब वह भी गँवार है। जब तक योरप अपनी माता-एशिया को नीचा दिखाने का अभ्यास न त्याग दे, तब तक वह अपने को सम्म नहीं कह सकता।

क्या मैं आपको उस बात का दुष्कारा समरण करा दूँ कि सशा प्रांस-वेश, जिसने मनुष्य के जन्म-सिद्ध अधिकारों की रक्षा करने की धौषणा की थी, और जिसका आदर्श शब्द, मेरी सम्मति में, समस्त जातियों के खलों की खतंत्रता की धौषणा करेगा; मनुष्यता के प्रति वर्ण-विभेद के पाप-पूर्ण पक्षपात में औरों की अपेक्षा कम अपराधी है ? मेरा देश फ्रांस जब ख्यं अपने

लिये ही भूठा नहीं है, तो वह निश्चय ही इतना बुद्धिमान और ज्ञात है कि वह किसी से घुणा नहीं करेगा। योरप के कई राष्ट्र दूसरों से तो बहुत कुछ चाहते हैं, एशियावालों से तो मुक्कड़ार ही चाहते हैं; परंतु आश्चर्य है कि वे अपने द्वारों को एशिया के लिये बंद रखते हैं। ओशोनिया (प्रशांत महासागर) में कई फ्रैंच टापू ऐसे हैं, जिनके बंदरगाहों और नगरों के द्वार आपके लिये सदैव खुले पड़े हैं। उनमें आप आनंद से जाइए, वहाँ आपके साथ कोई जातीय पक्षपात-पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। सोसाइटी दापुओं में—टेहिटी, पेपाइटी, मारकेसस, नवीन कैलिडोनिया, नोभिया इत्यादि में—जाइए, वहाँ प्रांत के नाम पर भिन्न के समान आपका आदर होगा।

पर इतना मैं अवश्य स्वीकार करूँगा कि हमारे यहाँ के इस व्यवहार से केवल संतोष होता है, बस रोग की संपूर्ण चिकित्सा अथवा शांति नहीं होती। आप यहाँ केवल संतोष पाने के लिये ही नहीं आए हैं, बल्कि इसके अलावे कुछ और भी करने आए हैं। मैं जानता हूँ कि आपमें से कितने ही सज्जन जातियों के राष्ट्र-संघ से शीघ्र ही अलग हो जाना अपना कर्तव्य समझेंगे। किंतु, यदि आप ऐसा निश्चय कर लेंगे, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, जिन्होंने आपके जापानी प्रतिनिधियों के द्वारा संशोधित प्रस्ताव को पेरिस-राष्ट्र-संघ में अत्यधिकत कर दिया था; क्योंकि यदि वे इसका विचार कर लेते कि आप इस प्रकार अलने का साहस करेंगे, तो वे अपनी सम्मति निस्संवेद और ही प्रकार से देते।

परंतु यदि मैं स्वयं अपना सम्बार-सत्रप काशित करूँ, तो मैं अहीं कहूँगा कि यह प्रश्न कोई विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि

उसमें आप लोग हों या न हों, योरप अथवा पेरिस का शांति-स्थापक जारीय संघ, जो भेड़ की खाल से ढका हुआ भेड़िया है, मेरी राय में, कुछ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेगा। चाहे हच्छा से हो या अन्य कारणों से, उस संस्था के अनुयायी बहुत कम हैं। इस दिल्लाऊ प्रजा-सत्तात्मक संस्था को अधिकारियों और प्रबल राज-पक्षियों की सभा के रूप में परिणत होने के लिये कुछ शोटी-सी लिहाज़-मुरोबत छोड़ देने की आवश्यकता है। यदि यह संस्था जीवित रह सकेगी, तो यह अवश्यमेव हेठा में रूस के जार द्वारा निर्भित शांति-मंदिर से भी उत्थार होकर हम लोगों की मनुष्यता के संहार करनेवाले भयंकर युद्धों के लिये सिगनल ( संकट-सूचक संकेत ) बन जायगी; क्योंकि उत्त-मोत्तम पदार्थ के दूषित होने के समान संसार में और कुछ बुराई हो नहीं सकती, और जब तक मनुष्यों के हृत्य न बदल जाएं तब तक उत्तमोत्तम संस्थाएँ भी असत्य के स्तूप हैं—पावङ्ग के गांदिर हैं। परं पेरिस के इस राष्ट्र-संघ से संबंध-विच्छंद कर लेने से ही काम न चलेगा। यह तो एक अक्रियात्मक कर्म होगा। यदि आप जो कुछ करना चाहते हैं, आपका जो कुछ ध्येय है, वह यदि आपका निजी स्वार्थ न होकर सचमुच एक आदर्श है, तो स्वयं आप ही को उस आदर्श को कार्य में परिणाम करना पड़ेगा। स्वयं आपको ही उम सभ छोटी-बड़ी, काली-भोरी और लाल-पीली जातियों का, जिनका मनुष्यत्व से कुछ भी संबंध है, जिनकी किसी भी प्रकार की भाषा और इतिहास है, एक सज्जा समाज स्थापित और संगठित करना होगा। बस, यही एकमात्र कार्य है, जो आपको करना चाहिए, और जिसका होना अत्याधिक है।

इसलिये आप उसीकी तैयारी करें। समस्त मानव-जातियों की कांग्रेस का, उनके विशाल परिवार के प्रेम-सम्मेलन का, आप ऐसा संगठन करें, और भूमंडल में बसनेवाली असंख्य जातियों को इस उद्देश्य से एक सूत्र में बांधें कि अंततोगत्वा सबे न्याय और सच्ची शांति की स्थापना हो जाय। यदि आप सच्च-मुच महान् बनना चाहते हैं, तो इस महान् कार्य को संपन्न कीजिए, भविष्य में आनेवाली इस महत्ती विजय के लिये तैयारी कीजिए।

इस तैयारी को पूरा करने के लिये आप पहले-पहल पश्चिया ही से कार्य का श्रीगणेश फर्में। यही आपकी उचित कार्य-परिपाठी होगी। पहले पश्चिया की स्वतंत्र जातियों ही की कांग्रेस को संगठित कीजिए; क्योंकि वह समय आ रहा है, जब एशिया की समस्त जातियों स्वतंत्र बन जायेगी। जब तक अन्य जातियों गुलाम बनी रहेंगी, तब तक कोई भी जाति वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगी। जब तक सबका आदर-सम्मान नहीं होगा, तब तक किसी एक का भी आदर-सम्मान नहीं होगा। यदि आप अन्यत्र अपना आदर-सत्कार कराना चाहते हैं, तो पहले दूसरी जातियों का आदर-सत्कार कीजिए; जो जातियों आपके अधीन हैं, उनको स्वतंत्र कर दीजिए, ताकि एक दिन सब जातियों स्वतंत्र हो जायें; क्योंकि दूसरों को बंधन में रखना अपने आपको बंधन में रखना है।

एशिया को ध्वाकर अपना ध्वाव करने का यही सबा उपाय है, और एशिया का उद्धार होने से अद्वितीय लगान् का उद्धार हो जायगा; क्योंकि एशिया ही समस्त संसार का झूँझू

है। निस्संदेह यही एकमात्र उपाय है कि एशिया के लिये एक नवीन सम्यता बनाई जाय; क्योंकि एशिया पर ही भूमंडल की आशा अवलंबित है। केवल यही एक मार्ग है, जिसके द्वारा आज का दुःख और पतन उस गौरव के रूप में विलीन हो जायगा, जो आपका आवाहन कर रहा है।

---

## तीसरा प्रकरण जापान का संदेश

(यह बक्तृता, २६ अप्रिल, १९१९ को, देक्खियो नगर में, दी गई थी)

विश्व-विख्यात मारशल पिटैन नामक एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी योद्धा महापुरुष ने गत २६ कारबरी, १९१९ को कर्नल कोवा-यारी के सम्मुख जापानी समाचारपत्रों के पॉच संनाद-दाताओं से कहा था—“जापान को चाहिए कि वह उस आर्थवाद का त्याग दे, जिसकी दुर्बलता जर्मनी द्वारा संपूर्णतः प्रभासित हो चुकी है, और उसे अपने निजी ऐतिहासिक आदर्श का भी विकास करना चाहिए।” अपने सुने निमंत्रण दिया, और मै उपस्थित हो गया। जो कुछ मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित करूँगा, वह और कुछ नहीं, केवल इसी वाक्य की गै़ज़ है। फ्रांस का यही संदेश है। आज मारशल पिटैन और मेरे द्वारा फ्रांस आप से पुकार-पुकारकर कह रहा है कि नीचे की वस्तुओं का आक-पंथ ही जातियों को रसातल में ले जा रहा है, इसलिये ऊपर की ओर देखो ! जर्मनी भी अपनी कल्प के अंदर से चिह्न-चिह्नकर कह रहा है—“धन का प्रेम सर्वनाश की ओर और शक्ति का घमंड मृत्यु की ओर ले जाता है।” चार वर्ष तक उस विशाल नाटक को देखफेर, जिसमें बीसों जातियों अस्तव्यस्त हो गई, जिसमें एक सम्यता शून्य की ओर ढकेल दी गई, एक संसार मटिया-मेट कर दिया गया, क्या आपने बड़ा भारी संघर्ष नहीं सीखा ?

वह भवक एक ही शब्द में संक्षिप्त किया जा सकता है, और वह शब्द है आदर्श। आदर्श का अनुकरण करो; पर्योकि एकमात्र मार्ग और उद्देश्य यही है, और ये ही मार्ग और उद्देश्य निश्चित, साध्य और सच्चे हैं।

अब हमें एक स्वप्न की रचना करनी चाहिए। हमें एक ऐसे मर्वांतम कार्यक्रम का विचार करना चाहिए जिसको जापान स्थय कार्य में परिणत करें, और एक आदर्श उदाहरण बन कर उसे अखिल जगत् के लिये भेट करें। वह कार्यक्रम होगा। एशिया की नवीन सभ्यता की सृष्टि जब कोई मनुष्य एशिया की नवीन सभ्यता का नाम लेता है, नष्ट योरुप के लोग चौकल्ने-से हो जाते हैं। वे इस बात का अनुमान भी नहीं कर सकते कि जिस सभ्यता ने आधुनिक मनुष्यों को पिशाच और मुराने जगत् को नरक बना दिया है, उसके अतिरिक्त कोई अभिकरत संपूर्ण और श्रेष्ठ सभ्यता हो सकती है या नहीं। लों भी इस सभ्यता के स्थान में एक नवीन सभ्यता का हाना परम आवश्यक है; पर्योकि वे लोग चाहे जितना नाचें-कूदें वा रोकें-पोड़ें; पर उनकी सभ्यता लुप्त होनेवाली है। उसके स्थान पर नवीन सभ्यता को स्थापित करने में क्या जापान योग दे सकता है? अपने घर में जापान इस कार्य के लिये क्या कुछ कर सकता है? और बाहर सारे एशिया तथा समस्त भाज्य-जाति के लिये भी वह क्या कुछ नहीं कर सकता? थं तीन विशाल प्रश्न हैं, और तीन देवीप्यमान कार्यक्रम ही इनके उत्तर हीने चाहिए। जापान अपने घर में इस तथ्य को हूँढ़ ले, और सचको दिखला दे कि एक ऐसी आदर्श जाति कैसे बनाई

जाती है, जिसमें दो सिद्धांत—जो आज कल सर्वत्र विभिन्न तथा कलुषित हो रहे हैं—एक साथ रख्ये जा सकते हैं, और उनमें सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, तथा उनमें राजसत्ता और प्रजासत्ता नामक दो ऐसी पृथक् शक्तियाँ भी रह सकती हैं, जिनमें विरोध का आविर्भाव तभी होता है, जब कि उनमें कोई एक शक्ति सात्त्विक गुणों से रहित हो जाती है; क्योंकि अगर कोई आदर्श राजा ईश्वर का एक विशाल स्वरूप है ( नराणां च नराधिष्ठम् ), तो प्रजा भी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है। राजा ईश्वर की एकता को बतलाता है, और प्रजा भी उसी ईश्वर के नाम रूपों को प्रकट करती है। सच्चा प्रजातंत्र ईश्वरवाद का केवल एक दूसरा नाम है।

सब लोगों का यह विश्वास है कि ईश्वर सदा राजा के रूप में प्रकट होता है। अतएव, लोगों के इस विश्वास के द्वारा सबे ईश्वरवाद का क्रियात्मक साधन करके, सबे भजातंत्र का ज्ञान भी प्राप्त कीजिए; परंतु इस बात से सदा साधधान रहिए कि टेह्रो कुछ और प्रजावर्ग के थीच में, जो एक दूसरे के अद्वितीय हैं, कोई ध्रष्टु या अपविद्य वान वनी रह कर, मंसार में अधायुंध न मचा दे, और स्वर्ग को उसके परदे में न छिपादे। आपने शोगन को दूर हड़ा दिया है, और ऊपर की फिरणों ने आपको प्रकाशित बार दिया है, परंतु

~ टेह्रो—जपन में राजा या राजाद का वह भाव भए हैं, जो लोग भए हैं। जपन में भी भाग्यवर्षी हो को तरह राजा ईश्वर का रूपरूप, परिज्ञाय वह अतार मनमा जाता है।

फिर भी शोगन एक दूसरे स्वरूप में और दूसरे नाम से उपस्थित हो गया है। वह अपने आपको 'लीजियन' कहता है। उसका नाम अब 'नारिकिन' के है। क्या आप कुछ सुन रहे हैं? अखिल योरप आप से पुकार-पुकारकर कह रहा है—“धन के राज्य का अंत दिवाला और अकाल है”, और रूस भी चिङ्ग-चिङ्ग कर आपको सचेत कर रहा है—“धनाढ़ी पूँजीपति लोग ही बढ़कर बोलशेविक राज्य की सुष्टि कर रहे हैं!”

जब आप स्वर्ग और पृथ्वी के उपर्युक्त दोनों भंडारों को पवित्र कर देंग, तब आप चीन की ओर ध्यान दे सकते हैं; क्योंकि चीन की ओर देखते ही आप समझ जायेंगे कि चीन के दो अलग-अलग विभाग उन्हीं दो सिद्धांतों के स्वरूप हैं, जिनको एक करना चाहिए—जिनमें समझौते से नहीं, बल्कि भाव-परिवर्तन से, एकता उत्पन्न करनी चाहिए। वे ये हैं:—दक्षिण चीन का सिद्धांत—पृथ्वी का आदर्श (भौतिक सुख), और उत्तर-चीन का सिद्धांत—स्वर्ग की आवश्यकता (आध्यात्मिक चाह)।

इस प्रकार जापान के बाहर आपका कार्य आरंभ होगा। उसका आरंभ एशिया से ही होगा। भविष्य में एशिया की जातियाँ स्वतंत्र होंगी; क्योंकि स्वतंत्रता देवी ने पृथ्वी पर अभिकार कर लिया है। अब प्रश्न केवल यही है कि आपका जापान-देश एशिया की जातियों का उद्घारक तथा नेता बनेगा, या उन स्वाभियों की शेषी में मिल जायगा, जिनके चंगुल से वे जातियाँ छुड़ाई जायेंगी। भविष्य में एशिया की जातियाँ एक हो

जायेंगी; क्योंकि एकता भी आ रही है। क्या जापान इन जातियों को एक करनेवाला बनेगा, या वह उनमें सम्मिलित होगा जिनके बिना और जिनके विरुद्ध वे एक होंगी।

दो वर्ष पहले मैंने आपके देश से कहा था कि चीन की सहानुभूति और प्रेम प्राप्त करने के लिये वह टिंगटाऊँ चीन को बापस लौटा दे; परंतु जापान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार की राजनीति का शब्दांबन करने से चीन को भी जापान अपना नहीं बना सकेगा, और टिंगटाऊँ को भी खो बैठेगा। मैं अब आप से कहता हूँ कि ऐशिया की एक जाति का उद्धार फरने के लिये जापान मार्ग-प्रदर्शक बने, और रवयं आगे बढ़कर कोरिया के छोटे-से देश को स्वतंत्र कर दे, उस पर से अपना अधिकार ढाले। ऐसा होने पर सारा ऐशिया आपपर विश्वास करने लग जायगा, सारे ऐशिया में आपका नेतृत्व साम्राज्य स्थापित हो जायगा। अगर आपको भविष्य में राजतिलक प्राप्त करना है, तो उसके लिये आपको सर्व भी करना पड़ेगा, कुछ फ्रीमत देनी होगी, और आप इसे भी याद रखें कि आप फ्रीमत देने में जितनी ही देर करते हैं, उतनी ही क्रीमत बढ़ती जा रही है। यदि आपको इस महान पव की प्राप्त करना है, तो क्षुद्र विचारों को, तुच्छ लाभों को, और छोटे-सोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। अब तो बहुत बड़ी-बड़ी बातों की धड़ी आ उपलियत हुई है। यह तो ऐहिक या भौतिक कार्य है, भभी इससे भी कहीं श्रेष्ठ, विशिक श्रेष्ठतम्, आध्यात्मिक और सर्वोत्कृष्ट पवित्र कार्य बाज़ी हैं। जब पहले आप

टिंगटाऊँ—चान की एक राजा, जो इस समय जापान के अधिकार में है।

उद्घारक बन जुकेंगे, तब आप आध्यात्मिक विजेताओं और योद्धाओं के राज्य में प्रविष्ट हो जायेंगे; क्योंकि उस पुण्यशील राज्य में जो विजय नहीं प्राप्त करता, वह स्वयं ही हार जाता है। ऐसा करने से आप संसार के धर्मोपदेशक बन जायेंगे—और ऐसे धर्मोपदेशक बन जायेंगे, जो पहिले स्वयं आदर्श बन लेते हैं, तब फिर चल कर दूसरों को शिक्षा देते हैं। दूसरे सभी उपदेशक ऐसा नहीं करते हैं। कभी-कभी आपसे ऐसा प्रताव भी किया गया है कि कुछ खास-खास जातियों से आप बदला लें, और जो देश आपके देश के मज़दूरों आदि को अपने यहाँ नहीं घुसने देते, उनके यहाँ के धर्म-प्रचारकों को आप भी अपने यहाँ न घुसने दें। परंतु मैं आपको इसके विपरीत परामर्श देता हूँ। आप प्रत्येक धर्म को पैलने और बढ़ने का अवसर दें, और साथ ही साथ अपने धर्म को भी बढ़ने का मौका दें। अगर आपके यहाँ एक किञ्चित्काल धर्मोपदेशक आवे, तो आप भी एक शिटो, कन्फूसियन, या ईसाई धर्म-प्रचारक को बाहर भेज दें। जितने पावरी जापान में बाहर से आवें, उतने ही धर्मोपदेशक आप अपने यहाँ से भी बाहर भेजें। जैसे राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के लिये परम्परा एक दूसरे देशों में दूत अथवा प्रतिनिधि भेजे और रक्खे जाते हैं, वैसे ही धर्म-प्रचार के लिये भी हर एक देश के धर्म-प्रचारक दूसरे देशों में स्वतंत्रतापूर्वक जाया और रहा करें। कई जातियाँ ऐसी हैं, जो आपके धर्म को नहीं जानतीं, जो अनभिज्ञता के कारण उसको जानने की उम्मेज़ा करती हैं। ऐसे लोगों को आप अपना वह धर्म सिखलाइए, जो प्रेम और आनंद से पूर्ण है,

सो जो हिंसा और खून-खराबी से खाली है, और जो ऐसा कहने का अधिकारी है कि संसार में शांति का राज्य अटल हो। आप जाकर उन लोगों को शिक्षा दीजिए, जिन्होंने स्वर्ग को विलुप्त खाली करके वहाँ केवल ईश्वर को ही रहने दिया है, और वह उनका ईश्वर भी स्वयं शीघ्र ही आत्माओं की रात्रि (अद्वानांभकार) में अंतर्द्वान हो जाता है। वह स्वर्ग उन देवताओं का निवास स्थान है, जो प्रकृति और मनुष्य के पूर्वज हैं। पर वे सब देवता वास्तव में एक ही हैं; क्योंकि वे सब देवता उसी एक परमात्मा के अनेक विचार तथा अनेक रूप हैं। आप जाकर उन धर्मों को शिक्षा। दीजिए, जिनकी धदौलत मनुष्यों के एकमात्र परित्र मूलाधार परमेश्वर के नाम पर समस्त जगत् में घृणा और भय का संचार हो गया है।

उस भगवान् के नाम पर जाइए, जो अखिल जगत् में अपने पैरांबरों या अवतारों को भेजता है, जिसकी धात्मा हर कहीं सौंस लेती है, जो सब जातियों और गोंद्रां में अपने धार्य को प्रगट करता, और जो मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिये युग-युगांतर में मानव-शरीर धारण करके गूत्तल पर अवतीर्ण होता है। जाइए; क्योंकि आब वह समय आ गया है, जब कि उस ईश्वर को प्रकट होना चाहिए। जाइए; और इस अवतार का शुभ संदेश सब जातियों को सुनाइए। ऐ अल्पसंख्यक जापान ! इस विशाल संसार-भर में फैल जा, कुछ भी भय मत कर, दुष्टों के सामने विनयी और स्वर्ग का दृत बन कर निकल जा। जो भविष्य में महान विजयी अवतीर्ण होनेवाला है, तू उसका चौपदार बन जा।

# चौथा प्रकरण

## प्रजातंत्र ( Democracy )

[ वैरन गोदो के मासिक पत्र 'शिजिदाह' देकियो में जो प्रजातंत्र-विषयक प्रश्न उठा था, उसके उत्तर में पाल रिचार्ड ने दिसंबर १९१८ में यह लेख लिखा था ]

आपने मुझसे पूछा है कि योरप के महासंघाम के पश्चात् प्रजातंत्र का सिद्धांत या भाव हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? परंतु मैं चाहता हूँ कि आप हम प्रश्न को हम रूपमें रखें—“हम सबे प्रजातंत्र के सिद्धांत को किस प्रकार प्रहण कर लें, और नकली तथा मूढ़े प्रजातंत्र के सिद्धांत से क्योंकर हुटकारा पा जायें?” अथवा, हम प्रश्न का इससे भी शेष्टर और सुगमतर रूप यह हो सकता है—“मिथ्या प्रजातंत्र के भाव को पढ़ाने और उससे सहमत होने से हम किस प्रकार बच जायें, और इसके विपरीत हम शब्द के यथार्थ अर्थ को किस प्रकार ढूँढ़ निकालें, और उसे सबको दिखा दें?” उस, यही भुख्य प्रश्न है, जो आपके और आपकी जाति के महत्व के बोग्य है।

वास्तव में प्रजातंत्र को प्रकार के हैं—एक सच्चा और आदर्श प्रजातंत्र, जिसको अभीतक किसी ने भी नहीं जाना है, और जिसको ढूँढ़ निकालना अभीतक बाली है। और दूसरा वह प्रजातंत्र है, जो अनेक स्थानों में कई आधुनिक रियासतों और राज्यों में प्रचलित है—जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस इत्यादि

में। इस दूसरे प्रकार के प्रजातंत्र की साधारण परिभाषा यह हो सकती है कि यह प्रणाली प्रतिनिधि-सभा (Parliamentary) और धनाह्न्य-जन-व्यक्तित्व (Plutoeratic Individualism) की है। अर्थात्, जो आधुनिक प्रजा-राज्य-प्रणाली है, उसके अनुसार राज्य का प्रबंध कुछ ऐसे धनाह्न्य पूँजीपरियों के हाथ में होता है, जो प्रजा के स्वयंभू प्रतिनिधि बन चैठते हैं। क्या इसी प्रकार की प्रजातंत्र-प्रणाली को पचान और प्रदृश करने के लिये जापान अधीर हो रहा है? अगर ऐसा ही है, तो उसे हुबारा नज़ेर रहना चाहिए कि योरप के पाश्चात्य शिक्षकों के उगान्देश की गटपट पूरी नकल उत्तारने के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। नकाली और भाँड़पन का कोई गहर्व नहीं है, बल्कि उसमें बड़ा भारी गम है। जापान ने यही से योरप की आधी नकल कर डाली है, उसका आधा स्थांग रच लिया है। यह भी आवश्यक है कि किसी जाति की पोशाक को स्वीकार करने से उस जाति के कुछ-न-कुछ विचारों को भी अद्वृण करना ही पड़ता है। योरप की टोपी, कोट, पतलून और टाई-कालर पहनने से वहाँ के थोड़े-बहुत विचार भी नकल उत्तारनेवालों के दिलों में अपना पर बना लेते हैं। किसी परदेशी का माल खरीदने में भी विचारों में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहता; क्योंकि यह ज़रूरी बात है कि परदेश से आए हुए सामान के साथ-ही-साथ वहाँ के रीत-रिवाज भी आ ही पहुँचते हैं, और रीत-रिवाज के साथ वहाँ के विचार भी लगे रहते हैं। विदेशी वस्तुओं के साथ-ही-साथ कुछ-न-कुछ विदेशी मानसिक भाव भी लगा रहता है। हर पक्ष पदार्थ के साथ उसके अनानेवाले के भाव और विचार

भी लगे रहते हैं। इसलिये, निश्चय रूप में कहना होगा कि जापान ने योरपीय पोशाक और सामान को धारण करके अपने आपको पार्लिमेंटरी शासन की ओर अप्रसर किया है, जिससे उसकी व्यवस्था में धनाढ़ियों की प्रबलता हो गई है। इसमें दो दोष हैं; एक दोप पो छोटा है, पर दूसरा दोप बहुत बड़ा है। पहला तो यह है कि योरप और उसके साथ-साथ अमेरिका भी, चीटी से लेकर ऐडी तक, अपनी उन सामाजिक और राजनीतिक परिपाटियों को बदलने की धून में लगा हुआ है, जिनका आग लोग अनुकरण कर रहे हैं। इस दशा में जिन संस्थाओं और प्रणालियों को आपने उन्नति का आदर्श समझ रखा है, और जिनकी आप नकल करते हैं, वे पाश्चात्य देशों में उन्नति-हीन और गँवारू नमभरी जाकर त्याग दी जायेंगी। ऐसी व्यवस्था में जापान नदि योरप का निरा नकाल ही रहेगा, तो बड़ा भारी भय है कि उन्नति की दौड़ में वह पिछड़ जायगा, और उसकी चाज वही पुराने हंग का रह जायगी। जिस योरप की नकल की जा रही है, वही जब आपना रंग हंग बदल देगा, तो वह निश्चय है कि नकल उतारनेवाला जापान फिर भी पीछे ही रह जायगा।

जापान के नेत्रों के सामने इस विषय का एक जीता-जागता उदाहरण भी उपस्थित है। अभीसे लगभग एक अरब मरुधरों के लिये, जो संख्या संभवतः और भी बढ़ेगी, पूँजीपतित्व हटा दिया गया है, और उसका स्थान श्रमजीवि-संघ ( Labour Collectionism ) प्रहण कर रहा है। इस इत्यादि देशों में सञ्चय-प्रबंध से मालवार लोगों का प्रभुत्व हटा दिया गया है, और वही-

प्रसुत्व अब मजदूरों के हाथों में आ गया है। वहाँ अब पूँजी-पतियों की कोई दूसी नहीं रही। अब वहाँ जो कुछ महत्व है, केवल शमजीवी लोगों ही का है; और प्रत्येक प्रांत, नगर या प्राम की ओर से पार्लियारेंट में प्रतिनिधि भेजे जाने की प्रणाली के स्थान में प्रत्येक प्रांत के प्रबंध-कर्ताओं की सभाओं की तरफ से उनके चुने हुए प्रतिनिधि राज्य-परिषद् में परामर्श और योग देने के लिये रोजे जाने लगे हैं। मन-मान प्रकार से बोट प्राप्त करके कोई धनवान या जमीदार राज-सभा में नहीं जुड़ सकता। इस में जो सोवियट-सरकार बनी है, उसकी रचना और उसका नियमादली देखने से यह बात साफ तौरपर समझ में आ जायगी कि योरप का अधिकांश भाग इस अवस्था को पहुँच गया है, और अवशिष्ट भाग भी इसी परिपाटी को प्रहर कर लेगा।

जो कुछ हो रहा है, वह किसी कीहुक अथवा जटिल डाग नहीं। यह परिवर्तन आहे जितना क्रांतिकारक क्याँ न हो, परंतु यह आद्वतिक विकास का एक सरल और सीधा परिणाम है। इस विकास की दलील अनायास ही समझ में आ जाती है, और इसको उपन्य परनेवाले कारण समस्त योरप में एक समान हैं। ये ही समान कागण समस्त पाश्चात्य सभ्यता में काम कर रहे हैं।

जापान के लिये जो दूसरा गुरुतर दोष है, वह यह है कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है, उसका अंतिम परिणाम भग्नानक है; तो भी वह समझता है कि दूसरों के मार्ग पर अलाकड़ भी हम उनकी-सी दुर्दशा को प्राप्त होने से बच जायेंगे। उस मार्ग पर चलने से जो दुर्दशा योरप और अमेरिका की हो रही है,

वही जापान के लिये लैयार खड़ी है। वह परिणाम इस प्रकार का है:-जब किसी भी देश के लोगों में आध्यात्मिकवाद का अपेक्षा पदार्थवाद का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तब वहाँ यह जारी हो जाता है कि पहले तो धनी लोग, और फिर साधारण लोग दरिद्र मनुष्य (मजदूर इत्यादि) राजसत्ता को क्रम क्रम से हाथ में ले लेते हैं। जब अम का व्यवसाय-मजदूरी-धंधा-किसी जाति का खास पेशा, या प्रधान कार्य हो जाता है, तो उन्हीं द्वारा भी मजदूर ही मुख्य व्यक्ति घन बैठता है। जब किसी देश में लप्या खासी घन जाता है, तग फपए को पैदा करनेवाला ही वहाँ का बादशाह घन जाता है। यह ज़रूरी बात है कि जिन लोगों पर हमारे लाभ अवलंबित रहते हैं, उनके पैरों पर एक-एक दिन हमें भरतक मुकाना पड़ता है। किसी भी देश की सामूहिक संपत्ति का सहारा मजदूर (अमजीवी) ही है; क्योंकि वहाँ उसको उत्पन्न करता है। अतः वह ऐसा उपयोगी होता है कि जिसके बिना समाज का किसी प्रकार काम नहीं चल सकता, और उसका परिणाम यह होता है कि वही मजदूर एक दिन सबका मालिक घन बैठता है; क्योंकि वास्तविक और सभी शासन-प्रणाली का यही मूल तत्व और यही वास्तविक उपयोगिता है कि वह आधिकाधिक-संख्यक मनुष्यों की भंवा कर सके। अंततः राज्य उसों के हाथ में रहेगा, जो आधिक-से-आधिक मनुष्यों की आधिक-से-आधिक सेवा करेगा।

जिसका आजकल के लोग सभ्यता कहते हैं, वह केवल पदार्थवाद और परिष्कृत असभ्यता की आंत्रिक समुद्दि भान्न है। उसका अंतिम, न्याय-संगत और अवश्यभावी परिणाम

हो—गवर्नरों का गत्य। जापान की भाली पक्षार जान लेना अद्भुत विवरणस्थि नहीं जिन वातों ने पैर्सी परियों को पैदा किए हैं तो उन्होंने लंबरेटिन ड्रेस की बाध्य कर दी है।

जापानी लोगों में शूट सोर्ट लेने वे—शूटकी ओर से नेत्र-मर्द, उल्लेख वाले जारी हैं। इन सभी व्यवस्था को सावधानी ने जापानी लोग भालक बेते हुए लिये और अपने घोलता जारी है : अद्भुत विवरण के लिये जापानी, और वे स्पष्टता से लोग हैं। जापानी लोगों ने उल्लेखियात्र भी जो उपलिखि, उल्लेखि, जापानी इष्ट विवरण से शूट कर भड़व नहीं रखती। वे उल्लेख में उल्लेखियाकु विवर जैसा भूल देते हैं। ऐसे ही लोग जापानी हैं। यह उद्धरण उचितिगत—

“कृपाली छान्दो ने बदा की एक महिला को वेदव्याकर तुक्का कर दिया था—‘इस लोहे के घोड़े भर्ता का भवानक विचार है’। यह उल्लेख में एक वापसी नहीं है—‘स्वयं भूमि इमानु विचारों की अपारिंश व्यापक भावात्मा’ कि वह जैरिता और दुःखी के विचार कहती हैं। और वे इन लोगों के विचारों को पसंद करता है।” वह यह एक भद्रात्मक लोहा भूमि है। उसके शाह आपको भी इस का दिलदारी करा देते हैं। यह पैर्सीपति का वालक होना भी भवन्तु योग्यों के परम शान्त लंबित और द्वौरकी के विचारों की वसंद काता है (ऐसे ही विचार आजकल हमारे भारत के भालदारों और अमीदारों के लोकों में पाये जाते हैं)।

भर्तिया की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप लोग

पसंद नहीं करते, परंतु मुझे बतलाइए तो सही कि इसको आप टाल कैसे सकते हैं?

कलिपय कवियों का यह स्वप्न है कि कभी न कभी भविष्य में वही पुरातन काल का शुभ दिन आ जायगा, जब न तो व्यवसाय-परायणता थी, न व्यापार-प्रधानता थी, न मजादूर अपनी आत्मा और अपनी शक्ति को पैसों के लिये बेच देते थे। इस स्वप्न के तथ्य का सो कोई प्रश्न ही नहीं है, उस प्रचीन काल में मजादूर को—व्यवसायी को—अपनी जीविका कमानी नहीं पड़ती थी; वह जीविका को मानो भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझता था, और जो कुछ बस्तुएँ वह अपने हाथ से धनाता था, उनको भगवान ही के अपेण कर देता था। वह अपनी जीविका को ईंधरदत्त समझता था। ऐसा कभी विचारणा भी न था कि मेरी जीविका भेरी ही कमाई है। इस प्रकार काम-काज और उत्तोग-धंधे कां सध लोग आपस में भेट या प्रसाद स्वरूप समझते हैं, परंतु आज ऐसा समय नहीं है। अब मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहा। अब वह भाङे का टट्ठू है। वह मजादूरी प्राप्त करने के लिये ही परिश्रम करता है, ईश्वर के लिये नहीं। वह अब किसी ऐसे व्यक्ति के लिये आपनी शक्ति और जान लड़ाता है, जो उसको धन देता है। ऐसो दशा में भी क्या आप चाहते हैं कि मजादूर अपने हृदय में सार्थ-शूद्र र्कर्तव्य को धारणा करें? यदि आप ऐसा चाहते हैं, तो पहले आप उन हिस्सेदारों और पूँजीपतियों को, जिनके संयुक्त धन से चलाए हुए कारखानों में मजादूर काम करते हैं, पुराने आदर्श पर चलने के लिये उपदेश दीजिए; तब कहाँचिन् आप ऐसा संभव कर सकेंगे कि मजादूर लोग अपने

आपको गुलाम न समझें, और स्वयं धनी बनने की जालसां  
छोड़ दें।

परंतु यदि ऐसी पुरानी व्यवस्था के पुनः संवर्दित होने की  
मंभावना न भी हो, तो भी कई लोग ऐसा विवाह करते हैं  
कि आगे चलकर इस तरह की और भी अधिकतर पुराइयों  
होंगी वाली हैं, जिन्हें जहाँ तक हो सके, पावरदस्ती रोकना भी  
शाब्दिक है। परंतु उसको रोकने की अपेक्षा तो किसी ऐसी  
नदी को रोकना फिर भी सहज और संभव है, जो नीचे के  
पैदान की ओर तीव्र बेग से बहती है। उस नदी के प्रवाह  
का आप निस्संदेह बाँध सकेंगे, परंतु ऐसा करने से उसका बंग  
और भी युद्धमनीय हो जायगा। उसके बहाव के आगे आप  
बाँध बैधवा हैं, परंतु जल-प्रवाह तो बाँध के ऊपर तक चढ़कर  
उन्हें ताढ़ खालेगा। बाँध के दूटने से जो गङ्गावड़ और सर्वेनाश  
होंगा, वह और भी भयंकर होगा। जीवित शक्तियों को कोर्ट नहीं  
राक सकता। आप उनको गाड़ देंगे, तो वे फिर उग निकलेंगी।  
आप उनकी हतों देंगे, तो वे फिर अभक्षण कर फूट निकलेंगी।  
मंसार में किसी भी पुलिम में विचारों के प्रधान को रोधने की  
शक्ति नहीं है, किसी भी नौकरशाही के कानून उस स्वतंत्र स्वर्ग  
पक नहीं पहुँच सकते, जहाँ से वे आजंद शक्तियों जल-समुदाय  
के महिलाएँ और हृन्य में तीव्र बेग से अधतीर्ण होती हैं।  
किसी प्रकार की व्यवस्था को बहुत ही शोड़ समय में और  
निश्चित रूप से पूर्ण करने का यदि कोई उपाय है, तो वह यहाँ  
है कि बल-प्रयोग से उसका विरोग किया जाय। दग्धन-नीति के  
प्रथाग से कोई भी शक्ति दोकी नहीं जा सकती। यह यहाँ सहक

है, जिस पर रुस की जारशाही चली थी। उस चाल का अनुकरण आप न करें—उस सङ्क पर न चलें।

फिर भी मान लिया जाय कि जो भाव आपको अहंचिकरा हैं, उनको रोकने के लिये आप बल-प्रयोग से प्रयत्न करेंगे; पर परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि जब आप अपनी फौजों को जन-सहुदाय की प्रवृत्ति-धारा से युद्ध करने के लिये भेजेंगे, तो आप सावधानता के साथ स्मरण रखें कि आपकी भेजी दूड़ फौज कदाचित् बाहरी विजय की दुंदुभी बजाते हुए आपके पास लौट आवें; परंतु अंदर में तो आपकी फौज उसी भाव से परास्त होकर लौटेगी, जिस भाव का ध्वंस करने के लिये वह ललकार कर भेजी गई थी, जिस रंग को फीका करने के लिये सैनिकों की तैनाती हुई थी, वही रङ् उनके हृदयों पर भी चढ़ जावेगा। इस व्यवस्था की आप क्या चिकित्सा कर सकेंगे?

तो किस इस व्यवस्था से बचने का क्षमा कोई उपाय ही नहीं है? हाँ, एक उपाय अवश्य है। पीछे हटने या विगुल होने का आवश्यकना नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हर हालत में शीघ्रता प्रौर निर्भीकता से आगे ही बढ़ना चाहिए। उनसे दूर भागना या लड़ना-भिड़ना उपादेय गार्ग नहीं है; बल्कि उनकी सेवा करना ही साध्यप्रद है। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य का आवश्य आपके लिये शान्त और भर्यकर न बन जाय, तो आग उससे सधेम हाथ मिलाइए, उसको मिल बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य आपको नष्ट न कर दे, तो उस भविष्य का निर्माण आप स्वयं करें। जल-धाराओं के बहाव के लिये आप

प्रवाह-नेत्र बना लीजिए, ताकि तहस-नहस करने के बदले वे धरती को सीचकर उपजाऊ बना दें।

नवीन शक्तियों को जीतने के लिये यह आवश्यक है कि आप उनके मार्ग-दर्शक बन जायें, और मार्ग-दर्शक बनने के लिये आपको उनकी सहायता करनी पड़ेगी। और भातों के साथ-साथ आप उनके लिये भी स्थान बनाएं। आज आप मजबूरों और साधारण जन-समुदाय के लाभों के लिये भुप्रबंध कर डालिए, ताकि भविष्य में वे आपने लाभों और स्वतंत्रों को रक्षा के लिये आपके विरुद्ध खड़े न हो सकें। न्याय को सार्वत्रिक और सर्वतर्गत बना लें, ताकि भविष्य में उसके लिये माँगें और उद्घासियों और भी उम होकर, चरम सीमा तक न पहुँच जायें।

सारांश यह कि स्वयं अपनी और दूसरों की लोभमयी इच्छाओं के द्वाने के लिये आप आदर्श के सेवक और सहायक बन जायें, नाश को आसानी से प्राप्त करनेवाले कुमारों से दूर हट जायें, दूसरों का अनुकरण न करें, किंतु नवीन आविष्कार करें। आप नूतनता के सबे उदाहरण बनें, नकाल या बहुरूपिया न बनें। भिन्ना प्रजातंत्र का पाठ अभ्यस्त करना छाड़कर सबको सबे प्रजातंत्र का पाठ पढ़ावें। किंतु उसको ढूँढ़निकालने के लिये पहले आप अपनी वर्तमान अवस्था से और भी अधिक उत्तर हों। जबतक आप स्वयं स्वार्थपरता से अपर न उठेंगे, तबतक सबे प्रजातंत्र को आप नहीं ढूँढ़ सकेंगे।

वास्तविक प्रजातंत्र कोई प्रणाली नहीं है, यद्कि एक भाव है। यह भाव नियमों, सूत्रों, संसाधार्णों और प्रतिनिधि-सभाओं पर अवलोकित नहीं है। जहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ भी एक पुरुष का

बादशाही चल सकती है। जहाँ बादशाही है, वहाँ प्रजा-सत्ता भी राज्य-प्रबंध में खूब भाग ले सकती है। सम्राटों और बादशाहों की अपेक्षा प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्रों के राष्ट्रपति अधिकतर स्वेच्छा-चारी और उच्छृंखल हो सकते हैं। पुरातन काल में यद्यपि यूनान में प्रजातंत्र था, तथापि वहाँ पर रोम के बादशाही राज्य की अपेक्षा गुलाम-करोशी (दास-विक्रय-प्रथा) अधिकतर प्रचलित थी।

इस प्रकार के अनेकानेक आमुत उदाहरण हैं। इंगलैंड में बहुत सी प्रजा-सत्तात्मक संस्थाएँ हैं; परंतु उनके होते हुए भी वहाँ के थोड़े-से सरकार और रईस ठीक उसी प्रकार देश की समस्त भूमि पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, जिस प्रकार राज्य-क्रांति के पूर्व रूस में रईसों का अधिकार था। इंगलैंड की राजधानी लंडन में एक आदर्श और संसार की प्रतिनिधि-सभा धर्थवा दूसरी सभी बड़ी-बड़ी राजधानियों में एक-एक पार्लियामेंट हैं, परंतु उन सभी राजधानियों में सबसे अधिक दृढ़िता और कष्ट विद्यमान हैं। इंगलैंड के प्रधान मंत्री श्रीयुत लायड जोर्ज ने कुछ दिन पहले प्रकट किया था कि योरप के महासंघाम में भाग लेनेवाले सब देशों की अपेक्षा इंगलैंड ही में अत्योग्य और हीन पुरुषों की संख्या अधिक है।

सशा प्रजातंत्र सबसे उच्च पद्धतिकारियों की बक्तृताओं का प्रजातंत्र नहीं है। अमेरिका के किसी मालादार आसामी ने कुछ दिन पहले रूस में यात्रा करते समय समझा था कि “रूस के भूमें मजादूरों और कृषकों को मैं राज्य-न्युत जार की हैशल देन से या राजमहलों की अटारियों पर से प्रजातंत्र की शिक्षा है

सकता हूँ”; परंतु सच पूछिए तो ऐसा प्रजातंत्र सच्चा प्रजातंत्र नहीं है। सच्चा प्रजातंत्र वह भी नहीं है, जिसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के समय बोट (सम्मतियाँ) प्राप्त करने के हेतु बलबंदियों के समाशे देखे जाते हैं। आज के गुलाम को इस प्रकार का धोका देना कि—उसके देश में जो पाँच-छ सौ बुद्धिमान्, जाल-साज और लुटेरे राज्य-परिषद् में बैठने को तैयार हो रहे हैं, उनमें से किसी भी एक के अनुकूल या प्रतिकूल सम्मति दे देने को वह स्वतंत्र है—कहापि वास्तविक प्रजातंत्र नहीं है। बस, इनमें ही से भोलाभाला जन-समुदाय अपने आपको स्वतंत्र समझ लेता है। किंतु जहाँ बहुमत का आत्माचार होता है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती। मान लिया जाय कि एक प्राप्त में ५०० मनुष्य हैं, वहाँ पर स्वराज्य है; किसी कार्य के लिये स्वार्थ-पूर्ण वासनाओं की प्रेरणा से ४०० मनुष्य एक राय के हैं; पर अवशिष्ट विचारे १०० उनके विकल्प हैं; बहुसंख्यक भत्ते के अनुसार वे ५०० जीत गए और सब पर एक अन्याय हो गया। कहिं, यहाँ स्वराज्य क्या सच्चा स्वराज्य है? एक गुमनाम स्वेच्छा-चारी राज्य या एक चुनाव-प्रथावाला राज्य, जिसमें धनी लोग चाहे जैसे बोट लेकर धुस सकते हैं, क्या सच्चा प्रजातंत्र कहला सकता है?

सच्चा प्रजातंत्र—अर्थात् वास्तविक स्वतंत्र्य—बह है, जो मनुष्य को दासता के जदिल बंधनों से छुड़ाता है—जो उसको महान्, उभ्रत, सुंदर और विशेष आनंदमय बनाता है। अमेरिका के सच्चे स्वतंत्र्य-प्रेमी महात्मा इमरसन (Emerson) ने कहा था कि “हम जिसको शापित करना चाहते हैं, वह इस पृथ्वी के देवता-

गण का राज्य है।” अर्थात् पृथ्वी पर जो देवता-नुस्त्र, निष्कपट, निलोंभी और निरभिमानी मनुष्य हैं, वे जिस राज्य-परिषद् में बैठें, वही वास्तविक प्रजातंत्र हो सकता है, और उसीको स्थापित करना हमारा ध्येय होना चाहिए।”

सबा प्रजातंत्र वह होगा, जिसमें छोटे लोग अपने को बड़े समझेंगे और बड़े लोग अपने को छोटा समझकर संतोष करेंगे, जिसमें बड़े लोग छोटे लोगों के लिये उदाहरण बनेंगे, जिसमें सबसे बड़े लोग अत्यंत निर्लोभी और गरीब बने रहेंगे, जिसमें सम्नाद् भी अत्यंत हीनता और दीनता को ही अपनी शोभ समझेगा, जिसमें बड़े लोग गरीगों का इतनी प्रबलता से पक्ष लेंगे कि उनके दुःख और दारिद्र्य को आप ही मेल लेंगे, पर उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने देंगे। ऐसी दशा में गरीब व्यवसायी और श्रम-जीवी किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं उत्पन्न करेंगे, छोट-बड़ों का अंतर नामनाम के लिये रह जायगा।

आपके सम्नाद् में जी का राज्य वास्तविक प्रजातंत्र था। उस राज्य में प्रजा की बेड़ियाँ फट गईं। उस राज्य में पहले-पहल अङ्गान के बंधन तोड़ गए थे। उस सम्नाद् ने प्रजा के सब प्रकार के घोग को उदारतापूर्वक अपने ऊपर ले लिया था। अपनी प्रजा के लिये वह कहा करते थे, जब रात में बहुत देर तक बर्फ पर चलते हुए विचारे गरीब मिहनत कर रहे हैं, तब मैं संध्या समय आग के पास बैठकर भूख का अनुभव कौने कर सकता हूँ? मंगे प्रजा किस कष्ट से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, यही विचार घम-घटा की नाई मंरे ऊपर सैदै छाए रहते हैं। सचे प्रजा-राज्य के भाव इस उपर्युक्त कथन में भौजून हैं।

जब प्रजा-राज्य के बल नाममात्र के लिये नहीं, पर वास्तव में एक पूज्यास्पद और आदरणीय कच्छहरी या आकिस होता है; जब स्वयं प्रजा अपने राजा का विशाल एवं पवित्र कोष मानी जाती है, जब दियासत का पहला क्रानून ऐसा चाहता है कि सब कार्यों का संचालन प्रजा की सम्मति द्वारा होना चाहिए, तभी वास्तविक प्रजा-राज्य स्थापित या स्थिर होता है।

परंतु हमें देखना चाहिए कि प्रजा की सम्मति क्या चीज़ है। प्रजा की सम्मति उत्तेजित जन-समुदाय की चिल्लाहट नहीं हो सकती। कितने लोग अपने निजी लाभों के लिये कई बातों को उलटा-सीधा बनाऊर असत्य रीति से प्रकट करके वृथा हमला मचा दिया करते हैं। ऐसी मिथ्या हाय-हाय सार्वजनिक सम्मति नहीं कही जा सकती। प्रजा की सभी सम्मति तो लोगों के हृदय और आत्मा में रहा करती है। जो भगवान्मा अपने को भूल जाते हैं, वे ही उस सम्मति को जान सकते और उसकी सेधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सम्मति, जिन्होंने अपनी निजी दलबंदी की स्वार्थ-पूर्ति के लिये राजनीति को एक व्यवसाय बना लिया है, सार्वजनिक सम्माति नहीं कही जा सकती।

व्यक्तिगत शक्तियों का संयुक्त आत्मा के लिये और संयुक्त शक्ति का व्यक्तिगत आत्माओं के लिये जो पारस्परिक आदर-भाव होना चाहिए, वही वास्तविक प्रजा-राज्य है। व्यक्तित्व या समूहत्व प्रजा-राज्य नहीं हो सकता, जिस राज्य में हर एक भनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित, या कोई दल अपने निजी लाभों के लिये उत्तेजित, हो रहा है, वह राज्य प्रजा-सत्तामक नहीं कहला सकता।

किसी देश में चाहे समाट् राज्य करता हो या बहुमत, वह प्रजा-राज्य नहीं कहला सकता। सच्चा राज्य वह है, जिसमें केवल वास्तविक प्रजातंत्र के भाव ही सुरक्षित रखे जाते हैं, और जिसमें से ऐसे शूठे राजा बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो केवल नष्ट करने योग्य बातों (आत्माबारों) से ही मैत्री करते हैं, और जो ईश्वरीय इच्छा के चिन्ह नहीं रह जाते।

सच्चा प्रजातंत्र केवल भूठे बड़प्पन को दूर करता और वास्तविक सत्युहबों को उत्पन्न करता है। यह केवल अपने तुष्ट स्वामियों को अलग करता है, जो लोगों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके खुशामदी और ढुकड़ेखोर भी हैं। जब लोगों के मन में ऐसे तुष्ट मनुष्यों के प्रति धृणा उत्पन्न होती है और उनकी आत्मा ध्रुव्य हो उठती है, तब वही ज्ञोभ उभड़ कर ऐसे लोगों का नाश करता है। वास्तविक प्रजातंत्र में न्याय और सत्य का ही राज्य रहता है। वहाँ बड़े-बड़े परस्पर-विरोधी विचारों में भी सामंजस्य उत्पन्न होता है और वे आपस में मेल खा जाते हैं। सतंत्रता एकता की सहचरी हो जाती है। निज श्रेणी का कटूर-पन और उच्च श्रेणी का आदर्शवाद आपस में संपूर्णतः मिल जाते हैं। प्रजा के वास्तविक स्थित और राजा के वास्तविक स्थित एक ही जाते हैं। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी एक-से ही जाते हैं।

परंतु ऐसा प्रजातंत्र है कहाँ? इस इसे कहाँ पा सकते हैं? अभी तो वह इस भूतल पर कहीं भी नहीं है। यही कारण है कि सब जातियों में भारी गड़बड़ मच्छर ही है। इसी गोलमाल में सबे पुरुष प्रजातंत्र को हँड़ते हुए भटक रहे हैं। किंतु इसी गड़बड़ी के अंदर से छंत में सच्चा प्रजातंत्र उत्पन्न भी होगा।

क्या आप भी दूसरों की तरह इस गड़बड़ी या दलदल में फँसने से बचना चाहते हैं ? अगर बचना चाहते हैं, तो फिर उन कारणों पर विचार कीजिए, जिनसे और लोग इस गड़बड़ी में फँसे हुए हैं। उनके स्वार्थमय विचार और अन्याय-पूर्ण कार्य ही उनको फँसाने के कारण थे। उन्होंने संसार-भर को अधिकृत करने का लोभ किया और अपनी आत्मा तक को शैतान के हवाले कर डाला।

ऐ जापान ! उनकी नकल भत कर, बल्कि तू स्वयं अपने ही में अपनी आत्मा और अपने ईश्वर को फिर हँड़ ले। अपनी आत्मा के ऊंचे विचार का फिर से ज्ञान प्राप्त कर, और अपने सभी धार्मिक कर्तव्य तथा उद्देश्य का पता लगा, वह धार्मिक कर्तव्य और उद्देश्य पूरा कर, एशिया का उद्घार कर, उसकी जातियों को सुखी बना, यहीं तेरा काम है। मेसा करने से तू स्वयं सुखी हो जायगा। तू सभी स्वतंत्रता को जान जायगा। जो कुछ तू दूसरों के लिये करेगा, वही तेरे लिये भी सिद्ध हो जायगा। तेरे बाहर के कार्यों का, तेरे परन्नाध्रीय कर्तव्यों का साज्ञात् प्रतिबिधि तेरे अंतर्गत परिवर्तनों में मलक उठेगा। जैसी सहानुभूति, स्नेह और आश्र तू दूसरे देशों के प्रति दिखलावेगा, ठीक वैसे ही भाव तेरे प्रति लोगों में उत्पन्न हो जायेंगे। तेरे परन्नाध्रीय कर्मों के महत्व और सौंदर्य तुझ पर उत्तर आवेंगे और तुम्हाँ सर्व-संपन्नता की स्वापना कर देंगे।

ऐ जापान ! तुम्हे जो कुछ अन्य देशों के लिये करना है, उसे कर। फिर तो स्वयं तेरे अंदर अधिकार और क्रोध नहीं टिक सकते !

# पाँचवाँ प्रकरण

## भावी मनुष्य

[ यह बकूना टोकियो में होटेंप्ल के वापिकोत्सव में, २० एप्रिल,  
सन् १९१९, को दी गई थी ]

इस संसार में जहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, जहाँ सर्वत्र अनंत का वासस्थान है, जहाँ अनंत का कुछ-न-कुछ अंश भी निवास करता है, जहाँ आदर्श का घर है, वहाँ आभी से कुछ-न-कुछ भविष्य का अंश उत्पन्न होता है। प्रत्येक देव-मंदिर मनुष्य उस पवित्र नगर (ईश्वर) का एक भवन है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है। इसलिये यहाँ, इस मंदिर में, इससे भी महान उस भावी महानगर को मैं नमस्कार करता हूँ। इस सम्मेलन के द्वारा मैं भविष्य के मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ।

इसी देव-मंदिर में मैं उस महात्मा पुरुष को भी प्रणाम करता हूँ, जो इसका केंद्र, इसकी आत्मा, इसका प्रकाश है, और जो इस भविष्य को। तैयार कर रहा है। क्या आप जोग जानते हैं कि ईश्वर का वरपुत्र कौन है? वही मनुष्य ईश्वर का संदेश-वाहक है, जिसको पवित्र भविष्य अपना दूत बनाता है, अपना एलची तथा अपना चौबढ़ार नियन्त करता है, जिसमें और जिसके द्वारा भविष्य पहले ही से अवतीर्ण होता है। वह बेचारा गरीब वही मनुष्य है, जिसकी आत्मा विज्ञ-आधारों और

प्रतिधातों से बने हुए इस वर्तमानकाल के मध्य में, भविष्य का संदेश प्राप्त करने के लिये, कभी-कभी द्व्याकुल हो उठती है; क्योंकि उसी भविष्य के शब्द के द्वारा इस भूतल पर युग-युगांतर से सृष्टि आदि का रहस्योदयाटन, मानव-जातियों की रचना का कौतुक, पुरानी जातियों का पुनरुत्थान और नवीन जातियों का जन्म आदि संपन्न होते रहे हैं। जहाँ कहाँ भी महात्मा पुरुष हैं, वहीं, भविष्य में आनेवाला अवतारी पुरुष, शक्ति-रूप में, बीजवत् विद्यमान है।

उस भावी पुरुष के लिये, उस अवतार के विषय में, क्या कहा जाय ? उसका विचार भी क्योंकर किया जाय ? वह तो हमसे ऊपर है, परे है, पारंगत है। परंतु उसके विषय में हम ‘नहीं’ भी कैसे कह सकते हैं ? क्योंकि अगणित काल से उसके आगमन की आशा की गई है। सब जातियों ने उसकी प्रतीक्षा की है। सब भविष्यद्वत्ताओं और पैरांबरों ने उसके अवतार की घोषणा की है। समस्त शताव्दियों ने उसे संपन्न किया है। आधुनिक मनुष्य पृथ्वी का सर्वोत्कृष्ट पुत्र नहीं है। वर्तमान काल का मनुष्य, सभ्य मनुष्य, एक दूसरे को हड्डपतेवाली जातियों वा मनुष्य, रक्तपात-प्रिय मनुष्य, स्वर्ग का अंतिम और सच्चा पुत्र नहीं है। वह तो शायद सर्वोत्कृष्ट व्याज्ञ है, न कि सर्वोत्तम मनुष्य। यह वह गरीब नहीं है, जिसके लिये अखिल सृष्टि द्व्याकुल हो कर आह भर रही है। यह वह मनुष्य नहीं है, जिसके लिये सृष्टि प्रसव-वेदना सहन कर रही है।

वह अभी आया नहीं। परंतु अब आवेगा। अभी तो वह नहीं आया है, किंतु आ रहा है। मनुष्यों के हृदय से, जन-

समूह के अभ्यंतर से, आज कल की तरह, क्या कभी व्यथा की भयावह चिल्हाहट निकली थी ? इस संसार की समस्त जातियाँ अपने सुकिदाता को पुकार रही हैं। और, यह वही सुकिदाता है, जो भविष्य में आनेवाला है। क्या आप लोग नहीं देखते हैं कि पृथ्वी काँप रही है—इसकी गुफाएँ तक हिल गई हैं ? इसी-लिये कि वह आ रहा है। यह उसका राजसी पदार्पण है, जो भूतल को हिला रहा है। क्या आप नहीं देखते हैं कि सब कुछ गष्ट होकर नवीन हो रहा है ? इसीलिये कि वह आनेवाला है। जिस पर उसकी छाप नहीं लगी है, जो उसके हुभागमन में अड्डबन के समान है, प्रतिधात स्पष्ट बता रहा है कि वह अवश्यमेव नष्ट होगा ।

सदैव से—पुरातन काल से ही—ऐसा हुआ है कि जब कभी परब्रह्म परमात्मा मानव-शरीर में अवतीर्ण होता है, तब उसके हुभागमन के पूर्व प्रचंड वायु और पवित्रकारी अग्नि की उत्पत्ति होती है, फिर पीछे मधुर मंद वायु चलने लगती है। मनुष्य-इद्य में अवतीर्ण होनेवाले उस पवित्रात्मा की श्वास-वायु विस्तृत हो जाती है। नवयुग के पदार्पण से पहले नाश, पुरजन्म के पहले मृत्यु, प्रकाश के पहले अंधकार, नवीन संसार और नवीन आकाश तथा नवीन नक्षत्रों के उद्य से पहले अस्त-व्यस्त और गोलभाल सदैव से होते आए हैं। जितनी ही अधिक गड्ढड्ढ और अव्यवस्था होती है, अवतार भी उतना ही अधिक अद्भुत और महान् होता है। इसको देखते हुए क्या नित्य भगवान् और आश्चर्यजनक नहीं है ?

उसी प्रकार आज भी एक बार फिर इस संसार के गाल-

माल और कुशा उस पवित्र राज्य और उस सन्नाट का आवाहन कर रहे हैं; परंतु जगत् में ऐसे मनुष्य, ऐसी जातियाँ और ऐसी सरकारें भी हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा न हो। ऐसी सरकारें और ऐसे लोग यह नहीं समझते कि यह काम होकर ही रहेगा। वे आगे बढ़कर नहीं, बल्कि पीछे हटकर अपनी रक्षा करना चाहते हैं। प्रभात की ओर न बढ़कर वे अस्त होते हुए सूर्य के पीछे दौड़ते हैं; क्योंकि उज्ज्वल भवित्व में उनका कोई विश्वास नहीं है। जो आनेवाला है, उससे वे भय खाते हैं। वे “भवित्व” का तनिक विचार न कर, और “वर्तमान” में रत न होकर, “भूत” के साथ हड्डता से चिपट रहे हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, और साथ ही उससे विरोध भी करते हैं। वे तूफान पर शक्ति से प्रभुत्व प्राप्त करना, विजली और बादल की कड़क और गरज को बल से बंद करना, शक्तियों के बढ़ाव पर अफसरी जमाना, और उमड़े हुए समुद्र को आगे न बढ़ने की आज्ञा देना चाहते हैं। परंतु समुद्र आगे बढ़ता ही चला जाता है, और उनको बहाए लिए जा रहा है। वे समझते हैं कि यह पृथ्वी हमारी स्वार्थमयी वासनाओं की संतुष्टि के लिये ही रखी गई है। परंतु उनको भरणे रखना चाहिए कि यह पृथ्वी भगवान् के प्रकट होने के लिये, नवीन गहापुरुण के आगमन के लिये, बनी है।

उस आनेवाले महात्मा के संबंध में हमें यह मानना पड़ेगा कि जैसा हम चाहते हैं, वैसा वह नहीं होगा। संभव है, जैसे कुछ हम हैं, उससे वह नितांत भिन्न हो। आधुनिक मनुष्य से इत्यत वह चलता हो। आजकल मनुष्य जिसना बढ़ा गुलाम है,

वह आनेवाला दिव्य पुरुष उतना ही बड़ा स्वतंत्र होगा। आधुनिक मनुष्य के बल शक्ति प्राप्त करने की वासना का गुलाम है; क्योंकि वह निर्बल है। वह धन की वासना का दास है; क्योंकि गरीब है। परंतु वह भावी मनुष्य, भविष्य का वह दिव्य अवसार, शक्ति-विहीन होने पर भी पूर्ण शक्तिमान् होगा, लूटे जाने पर भी धनाढ़ी होगा। उसे दूसरों के लूटने की आवश्यकता न होगी; क्योंकि वह स्वर्य सर्व-संपन्न होगा। उसको बाहरी और दिसाऊ बल की ज़रूरत न होगी; क्योंकि वह संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर ही धारण करेगा।

आधुनिक मनुष्य विज्ञान (Science) में विश्वास रखता है; क्योंकि वह वास्तव में अज्ञानी है। परिवर्तनशील विचार की अशुद्धियों का वह गुलाम बन रहा है। परंतु आनेवाला मनुष्य सर्व प्रकार के अज्ञान से विमुक्त होगा। वह अशुद्धियों को दूर करेगा; क्योंकि उसका जीवन सत्यता और शुद्धता से भर-पूर होगा। वह अनंत ज्ञान का भंडार रहेगा; क्योंकि वह आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित स्वर्ग में—मानसिक स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्वर्ग में—विचरण करेगा। क्या वह आपके महात्माओं का घतलाया हुआ वही 'Mei toku' नहीं है, जो संपूर्ण गुणों और प्रकाश का आधार है? वह निसार थोथे शब्दों के कोलाहल में नहीं, वस्तिक शांतिपूर्ण मौनावस्था में रहेगा। जब आधुनिक मनुष्य ऐहिक नियमों का परिपालन करता है, तब वह अपने को बड़ा पुरायबान् समझता है; परंतु भविष्य में आनेवाला दिव्य पुरुष पुरायबान् रहने के लिये स्वतंत्र होगा, बाहरी बंधनों से और सीमाबद्ध प्रणालियों से

बिलकुल स्वतंत्र होगा। वह एक ऐसे श्रेष्ठ नियम का पालन करने में स्वतंत्र रहेगा कि दूसरे सदृश भी नहीं कर सकेंगे। परंतु वह इसको स्वयं अपने अस्तित्व से भी ऊँचा रखेगा; वयोंकि जो कुछ एक साधारण मनुष्य को आनंद प्रतीत होता है, वह उसको पाप दिखलाई देगा, और जो कुछ पाप होगा, उसको वह एक श्रेष्ठतर पुण्य में परिणत कर डालेगा।

आधुनिक मनुष्य जब कभी किसी सांप्रदायिक धर्म के अनुसार अपने मनोनीत धर्म का पालन करता है, तब वह अपने को धार्मिक समझता है, परंतु धर्म तो केवल मार्ग है। शिखर पर मार्ग कैसे हो सकते हैं? मार्ग तो नीचे और बगावर की जमीन में होते हैं। जब कोई शिखर ही पर पहुँच गया, तब वहाँ कौन-सा मार्ग चलने को बाकी रह जायगा? मार्ग तो नीचे ही छूट गए। आनेबाला दिव्य पुरुष किसी विशिष्ट संप्रदाय या धर्म-विशेष का आनुयायी नहीं बनेगा। वह सब धर्मों को, यस्ति उसके अतिरिक्त कुछ और भी, धारण किए हुए होगा; वयोंकि स्वर्ग के सब स्थानों को देख चुकने के कारण वह संसार के समस्त मार्मां अथवा पंथों को समझ लेगा। वह देवों के द्वारा प्रचारित आद्वैत के रहस्य में, प्रकृति और पुरुप तथा आत्मा की शक्तियों की समानता में, प्रविष्ट हो जायगा। शिंटो-धर्म के द्वारा वह देव-ताओं और पितरों के स्वर्गीय अप्सरा-लोक में तथा ब्रह्म के अगाध आनंद में, निमग्न हो जायगा। बौद्ध-धर्म के द्वारा वह आनन्द-निर्वाण की महत्त्वी शांति और सर्वभूत के साथ स्वार्थ-सूक्ष्म प्रेम को ग्राह हो जायगा। इस्लाम-धर्म के द्वारा खुदा के बंदों के विश्वास और आज्ञा-पालन की संपूर्णता को पहुँच जायगा।

देवो-धर्म के द्वारा महान् देवता में परिणत हो जायगा । ईसाई-धर्म के द्वारा अवतार के शरीर धारण करने के अनुपम और अत्युत्तम मर्म को समझ लेगा ।

इन सांसारिक धर्मों के द्वारा—इनसे परे, इनके उस पार, इनके ऊपर—अप्रमेय और अनंत ब्रह्म के धर्म में वह निवास करेगा । सकल भुवनों में, प्रकाश और अंधकार के समस्त लोकों में (क्योंकि वे सब ईश्वर के हैं), आकाश के सारे घारा-बरीचों में, नीचे और ऊपर के सब स्थगों में, वह एक देव-बालक, दिव्य शिशु की नाई, स्वतंत्रता के साथ क्रीड़ा करेगा—रगण करेगा । स्थियं नरक अपनी छाती पर माता की नाई उसको भूलने में फुलावेगा । वह जीवन का स्वामी मृत्यु का प्रभु है; क्योंकि वह नित्यता को जानता है । वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही का नागरिक है । जैसे वह मनुष्यों के बीच में चलता है, वैसे ही देवगण के मध्य में भी विचरण करता है । वही इस जगत् का त्रामी तथा सेवक दोनों होगा ।

परंतु उसका ध्यान क्यों किया जाय ? उसका क्यों वर्णन किया जाय ? ऐ आधुनिक समय के मनुष्यो ! अगर तुम भविष्य के मनुष्य को जानना चाहते हो, तो तुम स्वर्य ही वह भाषी मनुष्य बन जाओ; क्योंकि वह तो अभी से विद्यमान है । यद्यपि वह अदृश्य है, तथापि तुम्हारे सम्रिकट ही यर्तमान है । उसके सामने हृष्य खोलकर रख दो । वह एक मेरी आत्मा है, जो सब पर प्रकाश डाल रही है, और इस संसार में किसी व्यक्ति-विशेष अथवा जीतीय-संघ द्वारा देह धारण करके अवतीर्ण होना चाहती है; क्योंकि जो भाषी पुरुष अवतार लेनेवाला है,

वह किसी एक ही व्यक्ति के रूप में अवतीर्ण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अपने आपमें परमात्मा के संपूर्ण प्रकाश और गुण-भंडार को कैद नहीं कर सकता। उसकी समस्त कांति और उज्ज्वलता के फूट पड़ने के लिये आत्माओं के एक समूह की आवश्यकता है। उस अधिकार के अवतरित होने के लिये एक कुटुंब की, एक चुनी हुई श्रेष्ठ जाति की, जरूरत है। वही जाति जापान बन जाय।

भविष्य काल की वह आत्मा, भावी लबीन पुरुष की वह दिव्य आत्मा, आज की इस सभा के जन-समूह पर मँडग रही है। उसके शुभागमन के लिये अपने द्वार खोल दो। तुम्हारी जापानी जाति पर वह पवित्र आत्मा मँडग रही है, अपने ऊपर उसका साम्राज्य स्थापित होने दो।

---

## बठा प्रकरण

### स्वर्ग के पुत्र

(यह व्याख्यान दोक्षियों में १९१७ के जून मास में दिया गया था)

संसार की सब जातियों में कुछ ऐसे भगुत्थ हैं, जो सर्व-आधारण के 'तुस्य नहीं होते। निसंदेह उनकी आकृति या रंग-रूप में कोई अंतर नहीं होता, तो भी वे जन-साधारण से बताने ही भिन्न होते हैं जितने स्वर्ग के प्रकाश और आनंद मर्त्यलोक के अंधकार और दुख से; क्योंकि उनमें उस प्रकाश का आनंद और उस आनंद का प्रकाश रहता है। संसार के पुत्रों में वे ही स्वर्ग के पुत्र हैं।

उनमें अधिकांश को कोई नहीं जानता। वे उन प्रकाश-पूर्ण स्थानों में निवास करते हैं, जिनको जन-साधारण हँडते-फिरते और जिनके अदृश्य गुप्त द्वारों की तलाश में ठोकरे आते और भटकते फिरते हैं। वे स्वर्ग-पुत्र उन सब घातों को समर्पते हैं, जिससे सर्व-साधारण बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वे वास्तविक आदर्श जीवन विदाते—जीवन के उच्चत सत्य पर आनंदण करते हैं। जब तक कोई उस पथ पर न चले, वास्तव में उन्हें वह कैसे जान सकता है? उनके पास वह वस्तु है, जिसको प्राप्त करने के लिये लोग आकांक्षा रखते हैं, और जिसे तबतक कोई नहीं पा सकता, जबतक उसके मनमें किसी प्रकार की आकांक्षा

हो। वह वस्तु जीवन का परम आनंद है; क्योंकि वास्तव में जिसमें वृष्णि नहीं रहती, उसके लिये समस्त जीवन आनंद ही आनंद है।

ऐसे स्वर्ग-पुनर कभी-कभी आपस में भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। वे जगत्-भर में फैले हुए हैं। कभी-कभी उनमें से कोई दो परस्पर मिला जाते हैं, और फौरन एक दूसरे को ताड़ जाते हैं। परंतु साधारणतः मनुष्य-समुदाय के बीच में वे पृथक्-पृथक् रहते हैं। इस प्रकार वे यद्यपि विभक्त हैं—पृथक् हैं, तथापि दूसरे प्रकार से वे सब एक हैं; क्योंकि उनका जीवन एकता “एकोऽहं द्वितीयो नास्ति” का ज्ञान है, और यह पूर्ण एकता ही उनको सब के निकटवर्ती बनाती है। वे दूर-दूर रहते हुए भी एक ही जगह रहते हैं। संसार उनके लिये एकांत शान है। एकांत ही उनका अपना संसार है, और जन-समुदाय से पृथक् रहना ही मानो उनका अपना समाज है। वे कोलाहल के मध्य में भी मौनता का आनंद भोगते हैं; पर उनका वह एकांत मौन उनके भाइयों के शब्द-नाद से परिपूर्ण है। ऐसे लोग बहुधा गरीब ही में जन्म लेते या पीछे से गरीब हो जाते हैं; पर वे अपनी दृष्टिता को अखिल जगत् के राज्याधिकार अथवा धन-भंडार से कदाचि बदलना नहीं चाहते। वे समस्त लोकों के समान हैं। वे सब कर्मों और प्रारब्धों के स्वामी हैं। वे सब प्रारब्धों की ओराइक पूर्णता और एकता के प्रसु हैं। प्रारब्धों के कारण जो धटकाएँ होती हैं, उनके तो वे स्वामी हैं ही, पर साथही वे उन प्रारब्धों के भी स्वामी हैं। कोई भी ऐसी वस्तु या व्यवस्था नहीं है, जो उनकी इस परिपूर्णता में न्यूनाधिक्य करे।

कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो उनके लिये इस परिपूर्णता का प्रसाद न होवे। उनकी दिनदिता की बराबरी सारे संसार की संपत्ति भी नहीं कर सकती। वे सर्वतोभावेन विरक्त होने पर भी बाहुल्य से बेछित हैं। संसार के सकल भेंडार उन्हींके हैं। वे क्षेत्रों से खूब परिचित हैं। सर्व-साधारण के जीवन की तरह, उनका जीवन भी संकटों से भरा हुआ होता है, और दूसरों की तरह उनका जहाँज़ भी कभी-कभी ढूट जाता है; परंतु जाहा जगत् में प्रतिकूल वायु के प्रचंड वेग की चाहे जितनी प्रबलता हो—बाहरी तूफान की चाहे जितनी प्रचंडता हो—उनके आभ्यंतरिक आशाश को शांति पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ सकता। जैसे समुद्र में धोर गर्जन करनेवाली लहरों ही के ऊपर वहाँ के पक्की आराम करते हैं, जैसे ही उनकी आत्मा गंभीरता की शक्ति का सहारा हूँड़ लेती है, और उसी पर विश्राम करती है। प्रचंड तूफान के बच्चःखल पर प्रचंड शक्तियों के वेग से उनका हृदय उसी प्रकार झुलाया जाता है, जैसे पलने में एक शिशु। रण-भूमि में भी वे शांति का उपभोग करते हैं, और ऐसी शांति भोगते हैं, जो सर्व प्रकार के ज्ञान से भी आगे बढ़ी हुई है। कोई ऐसा नरक नहीं, जिसमें वे परज़हा की मधुर मुस्कान की चमक न देखते हैं।

किसी खास धर्म के अनुयायी होने के कारण उनकी ऐसी ज्ञान दशा नहीं है। हर-एक धर्म के अनुयायियों में खण्ड-पुनर् है। परंतु ऐसे जन बहुधा सभी धर्मों की सीमा से बाहर रहते हैं। उसमें जीने के मार्ग हैं, और वे महात्मा तो शिखर पर रहते हैं—उस शिखर पर, जहाँ सब मार्ग जाकर मिल जाते हैं, जहाँ

सब धर्म संपूर्णता को पहुँच जाते हैं, जहाँ स्वर्ग-लोक भू-लोक में लाय हो जाता है; क्योंकि ऐसे स्वर्ग-पुत्र ही पृथ्वी के सबे पुत्र हैं। वे पृथ्वी को अपनी जननी की तरह प्यार करते हैं; क्योंकि वह मनुष्य, जो संसार से प्रेम नहीं करता, वह स्वर्ग को समझ ही क्या सकता है? वे संसार में ही स्वर्गीय जीवन धारण करते हैं। वास्तव में संसार मनुष्य को स्वर्ग से पृथक् नहीं करता; यह मनुष्य ही है, जो स्वर्ग को संसार से अलग करता है। जब मनुष्य कभी-कभी संमार को नरक बना सकता है, तो वह इसको स्वर्ग भी बना सकता है। नहीं, संसार या शरीर मनुष्य को स्वर्गीय आनंद से जुदा नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य की स्वार्थ-परता ऐसा कर सकती है। यदि मनुष्य स्वर्गीय आनंद को संसार में नहीं पा सकता, तो फिर वह इसे कहाँ पावेगा? स्वार्थ-परता मृत्यु के बाद तक, इस मांस-पिंड के विसर्जन के बाद तक, कायग रह जाती है। यदि स्वार्थ-पूर्ण आत्मा पृथ्वी पर छेष भोगती है, तो यह चाहे स्वर्गों के रवर्ग में भी क्यों न चली जाय, वहाँ भी छेष ही भोगेगी। ऐसा कौन स्वर्ग है जो अपना आनंद ऐसी आत्मा को प्रदान करेगा, जिसने अपने अंदर ही छेष और छेष के कारणों को न जीत लिया हो। वह आत्मा स्वर्ग में क्या निवास करेगी, जिसमें स्वर्ग ने निवास ही न किया हो?

जिस स्वर्ग में वे स्वर्गीय पुत्र रहते हैं, वह स्वर्ग उस स्वर्ग से, जिसे धार्मिक-संप्रदायों ने स्वर्ग माना है, इतना दूर है, जितना उनके कथनामुसार नरक दूर है; क्योंकि स्वर्ग और [नरक] मनुष्य की बासनाओं और उसके भय के भद्रकीले चिन्ह को

अनंत में लटका देते हैं—आर्थात् स्वर्ग की लालसा और नरक का भय मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्रदान करने में उलटे काँटे बन जाते हैं—जब भय और लालसा बनी रही, तो फिर स्वर्ग कैसा ? वासना और भय से बचना ही तो सबा स्वर्ग है । ठीक इसी प्रकार उन स्वर्ग-पुत्रों का आनंद भी, जिसे जन-साधारण आनंद बताते हैं, उतना ही भिन्न है, जितना भिन्न उनका बतलाया हुआ दुःख वास्तविक दुःख से; क्योंकि जिसे निर्विकार आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ है, उसके लिये आनंद साक्षात् दुःख है । भविष्य में आनेवाले दुःख के लिये एक संकेत है, और उसके लिये जो भौतिक बंधन को तोड़ कर सर्व-व्यापकता के अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है, उसका दुःख भी आनंद के रूप में बदल जाता है; क्योंकि सब जीव उसी आनंद के मायावी आकार हैं ।

उपनिषद् कहता है—“उसको दृঁढ़ो, जिससे सब भूतों ने जन्म प्रहरण किया है, जिसके द्वारा उत्पन्न भूतमात्र जीवित रहते हैं, और अंततोगता उसमें लय हो जाते हैं । सब कुछ आनंद ही से उत्पन्न हुआ है । आनंद ही के द्वारा सबका अस्तित्व कायम है, फिर सब आनंद ही में मिल जाते हैं ।” बस, स्वार्थ-परता के गला-धोदू बंधन को तोड़ते ही, वे आनंद को पुनः प्राप्त हो जाते हैं और शार्ति-पूर्वक उसमें मिल जाते हैं, जो अनादि, अनंत, असीम, अखंड, निर्दोष और निष्कलंक है—बही पूर्ण-बड़ा । आत्मा को स्वार्थ-परता से मुक्त करना बड़ा भारी चलिदाम है । संसार के कुछ मनुष्य इस महत् बलिदान के संपादन में लगे हुए हैं । वे उसका त्याग इसलिये करते हैं कि छेरा और अंधेपन

( अज्ञानता ) में भी एकाप्रता की संपूर्ण शक्ति को पूर्ण-ब्रह्म के स्वरूप का द्वार बना डालें। कितने ही मनुष्य इस आत्म-किया का सविधिसंपादन करके उसका पुरस्कार पाते, स्वतंत्र बनते, और अंत में उसकी पवित्र लीला में भाग लेते अवर्णनीय आनंद का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

यह कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो किसी प्राचीन ज्ञान का स्थान ध्यण करने के लिये रखे जाते हैं। जैसे, प्रकाशमान् अंतःकरण का स्थान ध्यण करने के लिये नियम और प्रणालियाँ बना ली जाती हैं। यह तो सब युगों और सब लोगों के लिये एक समान अनुभव है। इन बातों के विषय में कोई-कोई स्वर्ग के पुत्र कहते-सुनते हैं। हर-एक अपने-अपने विशेष ठंग से कहता है। परंतु सबका अनुभव वही एक है। हाँ, समझाने की रीतियाँ हजारों हैं। कई तो ऐसे हैं, जो कुछ कहते ही नहीं; क्योंकि वे ऐसा कुछ जानते हैं, जो शब्दों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता—समझा ही नहीं जा सकता। वह केवल मौनता द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे महात्मा पुरुष चाहें कुछ कहें या न कहें, वे अपने आचरण से ही अपना आदर्श प्रकट कर देते हैं; किंतु केवल उन्हीं लोगों के लिये, जो उनके जीवन का लक्ष्य या मूल्य समझते हैं। अन्य प्रकार की सभी शिक्षाएँ उनके जीवन की इसी शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। केवल यही एक सुख्य वस्तु है, जिसको समस्त संसार के सब लोग जान रक्ते और प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वही एक पदार्थ है, जो सब को आनंदित करना सकता है।

मैंने स्वर्ग-पुत्रों की खोज में संसार का पर्यटन किया है। वह घड़ी आ गई है, जब उन सबको भिलकर एकता के केंद्र की रचना करनी चाहिए। अब वे भविष्य में जन्म लेनेवाले नवीन संसार के हृदय की सृष्टि करें; क्योंकि इन पवित्र पुरुषों में कई सीधी-सादी आत्माएँ भी हैं। कोई खेतों के गड्डेरिए हैं, कोई जातियों के गड्डेरिए हैं, और कितने तो सांसारिक रणनीति के बोड़ा हैं। यदि उन कहायों को आत्म-चिंतन के प्रकाश के सिवा और किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं, जो आत्मा के स्वर्ग के प्रकाश हैं। यदि कहायों में अपनी आत्मा की उर्ध्वर शांति के अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं, जो दिव्य-कर्म के स्वामी और भविष्य के निर्माता हैं। स्वर्ग अपना आनंद तो सबको देता है; परंतु अपनी शक्ति किसी-किसी को ही प्रदान करता है। पौराणिक वीरों और नायकों में आजकल के लोगों का बहुत कम विश्वास है। ऐसे प्राणी इस संसार के नहीं प्रक्षीत होते। परंतु फिर भी वे इसी संसार में ही हैं। आज के दिन का-सा आत्म-ज्ञान और वल उनमें कभी आया ही न था। ऐसे वे ही नाम-रहित भगव पुरुष हैं, जो एक इशारे में सब जातियों के गूत काल की सकल वस्तुओं को भविष्य की जातियों के समक्ष चकनाचूर करके बखेर रहे हैं।

स्वर्ग के पुत्रों की खोज में मैंने संसार का अमण किया है, और अब भी कर रहा हूँ। जिसको अब तक मैंने पाया है, उनमें से एक तो ऐसा था, जिसको कहीं सिर रखने वा खान भी न था; पर वह अपने आनंद का गान करता और लपवेश देता हुआ सड़कों पर धूमता था। दूसरा एक भविष्य-शरीरी था, जो दस-

लाख मनुष्यों का अकेला पर्माचाय था। इन दोनों से बढ़कर तीसरा एक एकांतवासी था, जो भावी महापुरुष होने के लिये चुना गया है। इन सबके चारों ओर युवक-देवता विगज-मान हैं। जियाँ भी हैं, जिनमें गृह-देवियाँ और पूजनीया माताएँ सम्मिलित हैं। परंतु किसकी मजाल है, जो उन स्वर्ग-नुग्रियों के परदे को उठा दे……

ऐसे ही संत-पुरुषों को दृढ़ता-दृढ़ता मैं यहाँ ( जापान ) तक आ पहुँचा हूँ; अब इन सब महापुरुषों को, पूर्व और पश्चिम—दोनों ही—दिशाओं से आकर, एकत्र होना चाहिए; क्योंकि जिसके शुभागमन अथवा अवतार की प्रतीक्षा, भिन्न-भिन्न लाभों से, भिन्न-भिन्न जातियों कर रही हैं, मनुष्यत्व के उसी स्थानी का एक और अनेक शरीर बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है। अब वे सब मिल जायेंगे, तब उसका अवतार ही जायगा। फिर तो उसके शुभ और पवित्र दर्शनों से मानव-जानि के नेत्र सुम हो जायेंगे।

---

# सातवाँ प्रकरण

## आरविंद धोष

[ दोक्षियों के वासेदा-विश्वविद्यालय के एशियाटिक विद्यार्थि-सम्मेलन में, ३ मई सम् १९१९ को, यह व्याख्यान दिया गया था ]

मित्रों, मैं न केवल आपने शब्द ही, वालिक अपने हृदय को भी, आपके समन्वय रखता हूँ। मेरा हृदय ही आपके नव-जात और सुधोरण सम्मेलन का अभिवादन करता है; क्योंकि यह सम्मेलन मेरी दो परम-ध्रिय व्यवस्थाओं को एक ही बार में स्मरण कराता है। एक प्रकार से तो मैं इसको माता की तरह प्यार करता हूँ; क्योंकि एशिया संसार-भात्र की आध्यात्मिक माता है। दूसरी तरह से मैं इसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ; क्योंकि यह बच्चा भविष्य का प्रभात है। आप ही पर एशिया का भविष्य निर्भर है, वालिक आप ही पर सारी हुनिया का भावी कल्याण अवलंबित है।

आपही उस कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसका पालन करना आवश्यक है। आपका यह समाज भिन्न-भिन्न जातियों के विद्यार्थियों में भ्रातुर्ज का भव्य भाव उत्पन्न करके उन्हें पारस्परिक भ्रेम के कोमल बंधन में बंध रहा है। एशिया के विचारशील विद्यार्थी उद्योगों को एक सूच में गठित करके यह समाज समस्त एशियों की एकता का आयोजन कर रहा है। यह भावी एशिया को

मिला रहा है; क्योंकि भविष्य का एशिया एकता के सूत्र में आबद्ध हो जायगा।

इसी एकता में एक उच्चतर जीवन और एक विशेष संपूर्ण सभ्यता के भावी लक्षण अंतर्भूमि हैं। इसी एकता में एक महत्वी आत्मा निवास करेगी, जिसका निर्माण एशिया के हर-एक देश के उत्तमोत्तम गुणों के एकीकरण से होगा। जापान का चैतन्य, चीन की बुद्धिमत्ता और भारतवर्ष की आध्यात्मिक सभ्यता, तीनों उसमें सम्मिलित हो जायेंगी। भविष्य की इस विशाल आत्मा में एशिया के समस्त उच्चत विचार अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे। वे विचार वैदिक, शिष्टों, लौङ्ग, टेबो, ईसाई तथा इस्लाम के तत्त्वों और देवताओं को एकत्र कर देंगे; क्योंकि ये सब धर्म उस एक ही धर्म के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो परब्रह्म परमात्मा को जानने और उसका सुयश गाने के लिये रचा गया है।

भविष्य के मनुष्य से इसी भविष्य की आत्मा का निर्माण होगा। ऐसा निर्माण योरप के किसी पुरुष-सिंह से नहीं होगा। पाश्चात्य देशों में ऐसे विशाल व्यक्ति का अवतार नहीं होगा; क्योंकि उसकी शक्ति का अहंकार पुरानी दुनिया (योरप) का नाश ही करने में सफल हुआ है। नवीन संसार की रचना करनेवाला ऐसा अवतार एशिया का ही कोई पवित्रतम मानुषिक देवता होगा। इसी अवतार के शुभागमन के लिये समस्त संसार गडबड में पड़ गया है। इसी नवीन संस्करण और इसी नूसन सृष्टि के हेतु समस्त जातियों अपनी पुरानी परिपाठियों के विहँग कांति-भजा रही हैं, मनुष्य मनुष्यों की मानव-कर्त्तव्य पालन करने के लिये देश-देश में उपदेश दे रहे हैं; परंतु वे उनकी एक नहीं

सुनते। इसका कारण यही है कि वे अपनी आत्माओं की गहराई में इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मनुष्यत्व से भी कुछ-न-कुछ श्रेष्ठतर होने की संभावना है, जो उनमें चैतन्य उत्पन्न कर रही है।

अतएव, मैं आपके पास यह कहने के लिये ही उपस्थित हुआ हूँ कि आप अपने को तैयार कीजिए, अपने को ऐश्वर्य-शाली और प्रतापी बनाइए, भविष्य के लिये सुसज्जित हो जाइए, उस देवीप्रसान् भविष्य का निर्माण करने में लग जाइए; क्योंकि धड़ी धातों के संघटित होने की—गहरा व्यवस्थाओं के उत्पन्न होने की—और, महत्पुरुषों के, एशिया के पवित्र गनुष्यों के, अवतीर्ण होने की—धड़ी आ गई है। ऐसे विशाल और प्रतापी पुरुषात्मा पुरुष एशिया में अभी से विद्यमान हैं। मैंने अपने जीवन-भर में ऐसे दिव्य नर-रत्नों को सारे संसार के आंदर हूँढ़ डाला है। मैं सदैव से अपने दिल में जानता रहा हूँ कि इस भूतल पर कहीं-न-कहीं ऐसे मनुष्य व्यवस्थमेव भर्तमान हैं। यदि ऐसे मनुष्य यत्र-तत्र न होते, तो यह संसार ही मिट जाता; क्योंकि ऐसे ही मनुष्य इस पृथ्वी के प्रकाश और जीवन हैं। ऐसे मनुष्यों में एक अग्रगण्य नेता को, जो भविष्य का एक नाथक होगा, मैंने एशिया ही में पाया है।

वह हिंदू है। उसका शुभ नाम है अरविंद धोष। वह सन् १८७२ की १५ वीं अगस्त को कलकत्ता में उत्पन्न हुए थे। वह इस समय ४७ वर्ष के हैं। युधावस्था में वह विद्योपार्जन के निमित्त इंगलैंड भेजे गए थे। वह १४ वर्षे तक इंगलैंड में पढ़ते रहे। पश्चिम की विद्या को उन्होंने सीखा था, परंतु उनके लिये

वह पर्याप्त नहीं हुई। वह पूर्वीय प्राचीन विद्या तथा भारत के ज्ञान-विज्ञान को भी भली भाँति जानते हैं।

बीस वर्ष की अवस्था में वह भारत को लौटे। श्रीमान् बड़ोदा-नरेश ने उनको अपने विश्वसनीय कार्यों के लिये चुना। इस प्रकार वह बड़ोदा-रियासत में एक ऐसे उच्च और प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हुए, जिसे पाकर बहुत से मनुष्य संतुष्ट और कुतार्थ हो जाते हैं। परंतु उनकी अभिलाषाएँ अन्य प्रकार की थीं। उनके अंदर भारत-माता का असीम प्रेम भरा हुआ था। इसी-लिये उन्होंने यह दृढ़ संकल्प धारण किया—“मेरी माता के हृदय पर एक छोड़ है। जबतक माता का उद्धार न कर लैं, चैन न लैँगा।” इतना ही नहीं, उन्होंने एक और भी दृढ़तर संकल्प ठाना—“एक दिन मैं ईश्वर को साक्षात् देखूँगा”। इस संकल्प की पूर्ति के लिये उन्होंने बड़ोदा-दरबार वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पुरातन काल में गौतम बुद्ध ने साक्षात् छोड़ा था। उन्होंने ऊंचे ओहदे और हुक्मस्त के मीठे लालच को स्वाग दिया—सांसारिक और आर्थिक लाभों की सिलांजलि दे दी। और, इस प्रकार अपने महान् तथा विकट कर्तव्य का पालन करने के लिये वह बड़ोदा-राज्य से प्रस्थित हुए।

कलकत्ता जाकर वह नेशनल कालेज (जातीय महाविद्यालय) की स्थापना में सहायक हुए, ताकि सबसे पहले वह अपने युवक साथियों और देशवासियों की आत्माओं को विदेशी अधिकार के नियन्त्रण से बचा सकें। साथ ही साथ ‘धर्मेमातरम्’-नामक एक स्वतंत्र समाचार-पत्र के संचालन में भी उन्होंने भाग लिया। चस (पंत्र) के चारों ओर बहुत से उत्साही युवकों का एक बड़ा मंडल

थांडा हो गया। उनकी लेखनी और वाणी समान रूप में काम करने लगी। वह लेख लिखने तथा व्याख्यान देने लगे। जब वे भाषण देते थे, तो उनके शब्द उनकी आत्मा की गहराई से, भूत और भविष्य के अंतर्पट से, निकलते थे। बंगाल ने उनका भाषण सुनकर कान पटकाया। सारा बंगाल आग उठा। वही समय हिंदू-नवयुग का आरंभ था। जिस जातीय जागृति का उस समय सूत्रपात हुआ था, वह साल-भर के अंदर ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत में फैलती और वर्तमान अद्यत्य शक्ति तथा विराट आंदोलन की तैयारी के साथ-साथ भविष्य की सफलता का निश्चय करती हुई समस्त भारत में चमक उठी।

तदनंतर वह कारावास में—जो महान् और भुयोग्य व्यक्तियों की पाठशाला है—रख दिए गए। परंतु जब उन पर कोई भी अपराध प्रमाणित न हो सका, जब केवल इसके सिवा कि वह भारत-भाता के एक ईश्वर-प्रेरित पैतांबर हैं, उन पर कोई दोष सावित नहीं हुआ, तब वह एक वर्ष के पश्चात् छोड़ दिए गए; परंतु उस कारावास में उन्होंने समझ लिया कि उनकी कार्य-सिद्धि के लिये केवल मानुषिक बल ही काफी नहीं था, बल्कि दैवी पराक्रम की भी बड़ी आवश्यकता थी। दैवी शक्तियाँ उनके पास आई और उनसे आते कर गई। तत्पश्चात् उनकी हष्टि केवल पर-ब्रह्म-परमात्मा पर ही रहने लगी। हर घड़ी और हर जगह वह जहा ही को देखने लगे। जिस समय सरकारी न्यायालय में झुकड़ी की पेशी के समय वह खड़े होते थे, उन्हें प्रस्तुत अनु-भव होता था कि हमारे सामने जो हाकिम, वकील, वैरिस्टर, जेलर और फैदी इत्यादि उपस्थित हैं, वे धूरियत नहीं, वस्तु

आदरणीय और परब्रह्म के मानुषिक अवतार श्रीकृष्ण की मूर्तियाँ हैं।

फिर भी वह लिखते ही रहे। उन्होंने 'कर्मयोगी'-नामक मासिकपत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्र द्वारा वह अपने देश-भाष्यों को निझ-लिखित ओजासी संदेश देते थे—“जब तक आध्यात्मिक मुक्ति न प्राप्त हो जाय, तबतक कोई आधिक मुक्ति नहीं मिल सकती।” तदनंतर वह एकांतवास करने के लिये पांडिचेरी चले गए, जो दक्षिण-भारत में फ्रांस के अधिकार में है। आज से दस वर्ष पूर्व, कुछ दैवी-घटना-वश, वहाँ उनसे सेरी पहले-पहल भेट हुई। वहाँ वह धोग की समाधि में संलग्न हो गए। पौँच वर्ष के पश्चात् जब मैं उनसे दुबारा मिला, तब, उस समय तक, उन्होंने प्रकाश और शक्ति का संचय कर लिया था। वह ऐसा प्रकाश है, जिसके द्वारा भर्ग या पृथ्वी, या किसी भी लोक की कोई भी आत, उनसे गुप्त और अझात नहीं रह सकती। वह ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा उनका गहत् विचार हर जगह विना वासना, विना कष्ट, विना उत्तावलेपन और विना भय के उस सजिदानंद की इच्छा-शक्ति का अनुभव करता है।

उसके बाद के पौँच वर्ष और भी व्यतीत हो गए हैं। इन पौँच वर्षों में, सेरी प्रार्थना के अनुसार, एक मासिक पुस्तक के पौँच खंडों द्वारा, देवी और मातुषिक ज्ञान की एक ऐसी प्रभावशालिती और उद्घाटन धार्शनिक शिक्षा उन्होंने दी है, जो मनुष्यों को आज से पहले शाश्वत ही कभी मिली हो। अब वह दिन आ रहा है कि जब वह महाम् पुरुष—वह भारत का उद्धारक—अपनी एकांत समाधि और आध्यात्मिक आवरण के अंदर से निकलकर, उद्घाटन दिन

के पूर्ण प्रकाश में, एशिया के गुरुओं में से एक गुरु—संसार का एक शिक्षक—बनेगा।

जापान में आज प्रथम बार मैं उस दिव्य मूर्ति का नाम धोपित करता हूँ; क्योंकि मैं निसरदेह इस बात को समझता हूँ कि आपही लोग उस दिव्य पुरुष का शुभ नाम पहले-पहल सुनने के योग्य हैं। आज से अविद धोष का नाम आपके लिये, आपके इस सम्मेलन के लिये, एशिया के युवक-मात्र के लिये और स्वयं गमला एशिया के लिये एक संकेत, एक धोपणा, एक कार्यक्रम होगा चाहिए; क्योंकि यह शुभ नाम एशिया की मृत्युन्मरी और एकना तथा उसके पुनरुत्थान और भ्रताप के गौणव-पूर्ण अर्थ से गमित है।

---

# परिशिष्ट

## जातीय-समानता-संघ

### सूत्रपान

जातियों की समानता के लिये यह संघ उस संप्राम के कारण जिभित किया गया था, जिस संप्राम में समस्त जातियों ने अपना खुन एक रों मिला दिया; जिसमें अत्यंत घमड़ी राष्ट्र को भी, समानता के लिये व्याकुल होकर, अत्यंत गरीब राष्ट्र को पुकारना पड़ा; जिसमें समस्त सम्यताएँ और विज्ञान हक्कें-बक्कें रह गए; जिसमें कभी कोई पक्ष उठने लगा और कभी कोई छूटने लगा; जिसमें सब जातियाँ एक दूसरे का संहार करने पर तुल गईं; जिसमें सब मनुष्य पारस्परिक हत्या में रत हो कर यह समझते लगे कि स्थायी शांति और सार्वजनिक संरक्षण तभी स्थिर रह सकते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का समान-भाव से आदर करे—समानता के सङ्काच का पालन करे।

जातीय-समानता-संघ का जन्म प्रथम बार जापान में हुआ। जिस समय पेरिस में वह शांति-महासभा (Peace Conference) हुई थी, जिसे लोग भारतव में शांति-महासभा कहते और मानते हैं, उस समय जापान की बड़ी-बड़ा संस्थाएँ, जो जापान की सर्व प्रकार की शक्तियों की प्रतिनिधि थीं, एकत्र हुईं और

पेरिस-कान्फरेंस के कतिपय प्रतिनिधियों ने जो पद-दलित जातियों के स्वत्वों की रक्षा के लिये बोलने का प्रस्ताव किया था, उसका उन्होंने (जापानी संस्थाओं ने) समर्थन करने का संकल्प किया। इस प्रकार के जापानी संघ के प्रथम अधिवेशन में, जो एम० टेहशी सुगीटा के सभापतित्व में हुआ था, निम्न-लिखित पत्र पेरिस की शांति-परिषद् में भेजा गया—

टोकियो, ११ फरवरी १९१९—“शांति-सभा में मित्र-जातियों एकत्र होकर राष्ट्र-संघ बनाने और संसार में स्थायी शांति स्थापित करने की चेष्टा कर रही हैं। हम जापानी लोग इस प्रयत्न का हृदय से अनुगोदन करते हैं, और इसकी सफलता के लिये आतुरता-पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

“परंतु यह देखकर कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों में जो जातीय पक्षपात और विभेद था, और जो आव भी वर्तमान है, वह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है, उसीमें जातियों में पारस्परिक कलह-विभदि की सदा सृष्टि होती रहती है, जबतक उस पक्षपात और जाति-भेद को न उठाया जायगा, तबतक सर्व प्रकार की शांति-संस्थाएँ और सम्मेलन तथा समझौते बालू की दीवार मात्र होंगे—उनसे सबी शांति की कदापि आशा नहीं की जा सकेगी, हम जापान की ३७ संस्थाओं के प्रतिनिधि संसार की जातियों से अनुरोध करते हैं कि वे न्याय और मनुष्यत्व के सिद्धांतानुसार स्थायी शांति की स्थापना करें।

\* जापान के शांति भांक गोप्यसे के भूतपूर्व में वर और दि-प्रैसिंगेंड।

“जापानी जाति पेरिस की शांति-महासभा से आशा रखती है कि वह जातियों के पारस्परिक संघर्ष, द्वेष और असमानता के भाव को संपूर्णतया नष्ट कर देगी।”

उसी जापानी संघ ने अपने २३ मार्च सन् १९१९ के अधिवेशन में, पेरिस की शांति-महासभा की तत्कालीन प्रवृत्ति से अवगत होकर, वहाँ के सभापति को निझ-लिखित समाचार, तार द्वारा, भेजने का निश्चय किया—

“जिस राष्ट्र-संघ में जातीय पक्षपात और ऊँचनीच वा व्यवहार कायम रखता आय, उसकी स्थापना का जापानी जाति पूर्ण-रूप से विरोध करती है।”

इनना सब कुछ होने पर भी—इस जापानी संघ के लाख विरोध करने पर भी—पेरिस की शांति-महासभा में संसार की आशक्त जातियों के प्रति जो कुछ कुसित व्यवहार और छोट-बड़े का भेद-भाव स्थिर किया गया, वह सब पर विदित ही है। वहाँ नियम बनाए गए। उनमें जापानी प्रतिनिधियों ने कुछ थोड़ा परिवर्तन करने के लिये प्रस्ताव भी किया, और अशपि उस प्रस्ताव का बहुमत से समर्थन भी हुआ; पर, तथापि, अंत में, उस अधिवेशन के सभापति ( अमेरिका के प्रधान ) विलसन महोदय ने उसे इस बहाने से रद्द कर दिया कि इस प्रकार के परिवर्तनों को सीकृत करने के लिये बहुमत ही से काम नहीं चल सकता, बल्कि इसके लिये भिन्न-भिन्न पक्षों के बहुमत की एकता का होना भी आवश्यक है। इस प्रतिनात के पश्चात् जापानी संघ ने किर पेरिस की शांति-महासभा में निझ-लिखित गंभीर विरोध लिया भेजा—

जापान की राजनीतिक, धार्मिक, ऐनिक, जहाजी और समाचारपत्र-संबंधी आदि ३७ संस्थाओं ने, २४ अप्रैल १९१९ को, टोकियो के अपने तीमरे अधिवेशन में जातीय पक्षपात और ऊँच-नीच के व्यवहार पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है—

“जापानी जाति-ऐसे राष्ट्र-संघ में, जिसमें जातियों के पारपरिक अनुदार व्यवहार और ऊँच-नीच का विप्रभ भेद-भाव व्याप्त होंगे से इनकार करता है।”

परंतु जापानी संघ के प्रयत्नों की इस प्रकार की विफलता से इसका साहस घट नहीं गया, बल्कि इसकी शक्ति परिवर्द्धित हो गई। इस संघ ने शांति की एक स्थायी संस्था स्थापित करने और उसको दूसरे देशों में विस्तृत करने का निश्चय कर लिया। इस संघ का एकाकी रहना ही इसकी निर्वलता थी। पश्चिम और संसार की अन्य जातियों का जब इसमें सहयोग हो जायगा, तब यह शक्तिशाली होकर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर लेगा।

इस संघ के संस्थापकों के निवेदन पर, जापान में जिनके कार्य-कलाप के साथ मेरा धनिष्ठ संबंध रहा है, मैं खीकार कर चुका हूँ कि अपने हिंदुस्थानी मित्रों की सहायता के द्वारा जातियों की समानता के नियम में संघ के उद्देश्यों को भारतवर्ष में विस्तृत करने की व्यवस्था करेंगा।

## संघ का साधारण उद्देश्य

विभ संसार के लिये

( १ ) संसार की जातियों में प्रजातंत्र के सिद्धांतों की घोषणा करना और उनके स्वत्वों की समानता का संरक्षण—समानता का स्वत्व न केवल जाति-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष के लिये, बल्कि अखिल मानव-जाति की सभी श्रेणियों और सभी वर्गों के लिये आशयक है ।

( २ ) प्रत्येक मनुष्य में जो मनुष्यता का महत्व है, उसके प्रति प्रतिष्ठा के भाव को जाग्रत् और स्थापित करना, चाहे वह मनुष्य किसी जानि, गौचर अथवा रंग का हो ।

( ३ ) सब जातियों के, चाहे वे उन्नत हों अथवा अवनत, उन्नान के लिये चंडा करना ।

( ४ ) उन्नत जातियों के घमंड तथा अवनत जातियों की दीनता को प्रकाश में लाना ।

( ५ ) उस प्रत्यक्ष पाशविकास (परितोबस्था) से, जो पारस्परिक सद्व्यव और भावत्व के अभाव के कारण उपस्थित है, सब जातियों को ऊपर उठाना ।

## एशिया के लिये

( १ ) एशिया की भिन्न-भिन्न वर्ण की जातियों के लिये एक स्थायी समझौते और आधिक लाभों (स्वार्थों) की समता का निर्माण करके इस भावहीन के निवासियों में नैतिक तथा भौतिक एकता की छुट्टि करना ।

( २ ) इसके भिन्न-भिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों के

परिपाक और परिवर्द्धन द्वारा इसकी जातियों की कांग्रेस तथा सम्मेलन के संगठन की तैयारी करना ।

(३) इसकी जातियों को स्वतंत्र वृद्धि के द्वारा संसार की अन्य जातियों के साथ उनका शांतिमय संबंध स्थापित कराना ।

### हिंदुस्थान के लिये

(१) ब्रिटिश-साम्राज्य के अधिकार में ( कैनेडा और आस्ट्रेलिया आदि के समान ) जातीय समानता के स्वत्वों के परिपालन और पुष्टि के नियमित, अपनी खास समस्याओं के साथ-साथ समस्त मानव-जाति की समानता का प्रभ सम्मिलित करके, एक भवान सिद्धांत स्थापित करना ।

(२) जो हिंदुस्थानी बाहर के उपनिवेशों में रहते हैं, उनकी स्थायी सहायता और रक्षा तथा नियमित रीति से उनकी अवस्था की जाँच करने के लिये वास्तविक उपाय करते रहना ।

### संगठन

इस संघ के विभागों का संगठन संस्थाओं तथा सभासदों के द्वारा किया गया है—अर्थात् इसमें व्यक्तिविशेष भी सम्मिलित किय गए हैं, और संस्थाएँ तथा सभाएँ भी सम्मिलित की गई हैं ।

इस संघ की भारतीय शाखा का खृच्च विना वाचना के प्राप्त हुए धन से चल रहा है ।

भारत में इस संघ का संचालन इसकी संयुक्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा इसकी कमर्टी के प्रबंधकताओं द्वारा होता है ।

इसके विस्तार तथा इसके उद्देश्यों के प्रचार के हेतु एक अखिल राष्ट्रीय दफ्तर (International Bureau) की स्थापना की गई है। इसकी प्रत्येक शाखा और विभाग अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार खर्च में योग देता है।

इसके भिन्न-भिन्न भागों से संबद्ध रहने तथा उनके सिद्धां-  
तानुसार कार्य करने का मूल आधार नीचे-लिखी घोषणा पर  
निर्भर है—

### घोषणा

#### शतिहास के नाम पर

जिसको सब समय में और सब जातियों ने लिखा है, और  
जो हमें बतलाता है कि अनंत काल के प्रभातों और सार्वकालों  
के बीच से गुजार कर मनुष्यों के भिन्न-भिन्न कुटुंब और परिवार  
किस प्रकार उन्नत तथा अवनत और किस प्रकार क्रमानुसार  
मानुषिक उन्नति के कर्णधार हुए

#### विज्ञान के नाम पर

जो संसार-भर की सभ्यताओं की कथा है—जो सबका  
प्रकाश है—जो प्रत्येक में जगमगाता और बढ़ता है—जो हमें  
सिखाता है कि मानव-जातियों एक दूसरे से बनी हुई हैं; क्योंकि  
शताव्दियों से वे अपने पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान  
करने और अपने रुधिर को मिलाने से कभी बिगुल नहीं हुई हैं,  
वहिक उनके विचारों और खूनों का मिश्रण बराबर जारी रहा है

#### संसार के सब धर्मों के नाम पर

जिन्हें सब जातियों ने अपने शुहशों, भविष्यद्वक्ताओं, संर-  
क्षकों और आगुओं की भेंट दी है, और जो हमें शिक्षा देते हैं कि

“समस्त भिन्न-भिन्न गूतों में वही एक अविनाशी और अविकारी परमात्मा व्याप्त है”

(भगवद्गीता, अध्याय १८, श्लोक २०)

“यह संसार एक ऐसा प्रजातंत्र है, जिसके सब नागरिक एक ही तत्व से बने हुए हैं”

(एपिकटेटस, संवाद १४-२४)

“हम प्रत्येक एक दूसरे के अंग हैं”

(एपिस्ल दू दि रोमंस १४-२४)

“तुम एक दूसरे से उत्पन्न हुए हो”

(कुरान)

“पड़ोसी को अपने आपही की तरह प्यार करो”

(कनफूसियस, धीन)

“दूसरों के साथ हमें बैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार हम उनसे अपने साथ करना चाहते हैं”

(धर्मसंद, १२९)

“पौँछों महाद्वीप एक ही कुटुंब हैं”

(चीन का एक बौद्ध शिला-लेख)

मनुष्यत्व के नाम पर

जो एक और अनेक है—जिसका समस्त सार्वजनिक शरीर, विसी भी भाग में छोट लगने पर, कष्ट पाने लगता है—जो जातियों की विभिन्नता से परिपूर्ण है—जो जातियों की सुदृढ़ता से शक्तिक्षमंपन्न है, और जो उन सब की उन्नति तथा स्वतंत्रता-वृद्धि से सब्दं उत्पन्न होता है।

मानुषिक शांति के नाम पर  
क्योंकि पारपरिक आदर-भाव के बिना कोई भी शांति स्थिर  
नहीं रह सकती

विवेक शौर दुष्कृति के नाम पर  
जिसकी प्रगति एकता वी और रहती है  
और

आत्मा के नाम पर  
जो प्रेम से आश्रय से जीवित रहती है  
हम  
संसार की मानव-जातियों की समानता  
यी  
धारणा करते हैं।

---

गंगा-पुस्तकमाला की नई निराली पुस्तकें

**हिन्दी-नवरत्न** (मंशाधिन और मंशाधिन संवित्र द्वितीय मंसकरण,—  
इस अद्वितीय आलोचनात्मक गृहत् प्रथ के लेखक हैं हिन्दी के  
खनामधन्य सुलेखक, सुकवि तथा समालोचक श्रीयुत मिश-  
नंद्यु। इसमें दो रंगीन और ६ सारे चित्र हैं। सुलंगादित एवं  
सुसज्जित नवीन संस्करण, पृष्ठ-संख्या ३०० के ऊपर, ऐसी  
रंगीन सुनहर्ली जिल्ड, मूल्य ५)

**प्रागशिवत्त-प्रहसन**—वैगला के इसी नाम के प्रहसन के आधार पर इसे प० रुपनारायणजी पांडेय ने लिखा है। पढ़कर हँसते-हँसते पेट में बल पड़ने लगेंगे। चिदेशी बाल चलने-बालों का इसमें खूब खाका ग्रीष्मा गया है। सुख !)

सुकृति-संकीर्तन—लेखक, साहित्य-महारथी पं० महा-  
वीर प्रसाद विवेदी। इसमें आपने सुकृतियाँ, कविता प्रेमियाँ और  
कवि-कोविदों के आश्रयदाताओं के संबंध में परिच्छयात्मक  
लेख लिखे हैं। आपकी ओज़खिनी लेखनी की सभी विशेषताएँ  
इन लेखों में मौजूद हैं। इस सुंदर, सरल, सरस और प्रौढ़-  
गण्ड का पूर्ण अमत्कार है, इन भनोटंडक रचनाओं की विवाहित  
में जो व्याप्ति व्यंगत है, वे कभी पुरानी नहीं हो सकतीं। इन्हें  
धार-धार पढ़ने पर भी जी नहीं उब सकता। इसे पढ़ने में एक  
उपदेशप्रबन्ध उपन्यास का सा आनंद आता है। कहीं साहित्यक  
सालित्य है, कहीं अगाध पांडित्य है, कहीं काव्य की कलनीय  
छुटा है, विलकुल नायाब चीज़ है। इसमें दस चित्र भी हैं।  
मूल्य १।), छुनक्षरी देशमी जिल्द १॥)

**प्रेम-प्रसून**—सेलक, थीयुत प्रेमचंद जी। इनकी रचना ऐसी स्वाभाविक, दोषक और भाव-पर्याप्त होती है, वैसी ही शिक्षाप्रद, जलसाह-वर्धक तथा गमीर भी। प्रेम-प्रसून इन्हीं की एक-से-एक यह कानूनी कहानियों का संग्रह है। अधि-

तक इनके जिनने गल्प-संग्रह छोड़ दें, उनमें गह संग्रह सबर्ग बढ़कर है। मूल्य १); गंगीन रेशमी भुजहरी जिल्द २॥)

**चित्रशाला**—फहानियाँ के श्रेष्ठ लेखक पं० विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को कौन नहीं जानता? आपकी कहानियाँ पढ़ते-पढ़ते पाठक कभी डरणा नहीं जैने लगते हैं, और कर्मा यिनोद की गुदगुदी से हँसने जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? मूल्य ३॥); सुनहरी रेशमी जिल्ददार २।)

**मनोविज्ञान**—लोखन, पंडित चंडमौलि भक्तुल एम्० प०, प्रत्येक शिक्षक और छात्र फैले पान इस पुस्तक की एक प्रति अथश्य ही इनी चाहिए। विषय गता ही, पर लेखन-शैली इतनी शर्म और भरत है कि पुस्तक आरंभ करने पर बिना समाप्त किए छांडने खो जी नहीं चाहता। गतोरंजन और शिक्षा, दोनों का उनमें भाग है। मूल्य ३॥), सुनहरी रेशमी जिल्द १।)

**राववहानुर**—फाँस के सुप्रभिन्न दास्यरर लेखक मौलियर के सुविच्छ्यान प्रहसन का यह शानमग अनुपाद है। इस प्रहसन को पढ़कर आप हँसते-हँसते लौट-पोट ही जाइएगा। भाव, भाषा, शैली, सब में भारतीयता भर जाने से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इसकी फँकेटी हुई लोचदार भाषा में बड़ा भजा है। ऐसी शुद्ध यिनोद-पूर्ण एवं सुखचित्तदृष्टि पुस्तक हिंदी में केवल एक-आठ प्री है। मूल्य ३॥), सुनहरे रेशमी जिल्द १।)

हमारे यहाँ द्विदुस्थान-भर की हिंदी-पुस्तकों मिलती हैं। उनपर स्थायी आहकों को —) रघुवा कसीशन मिलता है।

**संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय**

२४-३०, अपीनाधाद-पार्क, लखनऊ

